

SHARMA HARDWARE
Sharma Gali, SJ Road
Athgaon, Guwahati-01
98648-02947

विकसित भारत समाचार

राष्ट्र निर्माण में प्रयत्नशील

वर्ष : 11 | अंक : 64 | गुवाहाटी | मंगलवार, 1 अक्टूबर, 2024 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 8 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHIN/2014/56526

सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए कानून का शासन जरूरी : राष्ट्रपति

पेज 2

कांग्रेस से असम का विकास देखा नहीं जाता : मुख्यमंत्री

पेज 3

प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन सरकार, जो कहा वो पूरा किया और पूरा ...

पेज 5


भारत ने अभ्यास मैच में वेस्टइंडीज को हराया ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने दर्ज की जीत

पेज 7

पारदर्शिता के नए युग की ओर बढ़ रहा असम : मुख्यमंत्री

25,238 उद्यमियों को 75,000 रुपए की पहली किस्त वितरित की

गुवाहाटी (हि.स.)। युवाओं को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर असम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने आज गुवाहाटी के पशु चिकित्सा महाविद्यालय में 25,238 उद्यमियों को 75,000 रुपए की पहली किस्त वितरित की। उल्लेखनीय है कि इस पहल के तहत सामान्य योग्यता वाले उद्यमियों को कुल दो लाख रुपए मिलेंगे। जिसमें से एक लाख रुपए अनुदान के रूप में और शेष एक लाख रुपए ऋण के रूप में दिए जाएंगे। पेशेवर योग्यता वाले उद्यमी, जैसे इंजीनियरिंग या चिकित्सा में डिग्री रखने वाले उद्यमी पांच लाख रुपए प्राप्त करने के पात्र हैं, जिसमें से 2.5 लाख रुपए अनुदान के रूप में और 2.5 लाख रुपए ऋण के रूप में दिए जाएंगे। आज के वितरण में, सामान्य योग्यता वाले 25 हजार 064 उद्यमियों और पेशेवर योग्यता वाले 147 उद्यमियों को 75 हजार रुपए की पहली किस्त मिली। लाभार्थियों में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग शामिल हैं, जिनमें कृषि और बागवानी से जुड़े 1,156 लोग,



फैब्रिकेशन या हार्डवेयर व्यवसाय से जुड़े 502 लोग, जलयु कृषि से जुड़े 3,522 लोग, सेवा और अन्य विविध क्षेत्रों से जुड़े 4,855 लोग, पैकेजिंग से जुड़े 326 लोग, बांस और अन्य पौधों की प्रजातियों की खेती से जुड़े 21 लोग, मुर्गीपालन और पशुपालन से जुड़े 10,321 लोग,

परिधान निर्माण से जुड़े 1,015 लोग, व्यावसायिक शिक्षा के जरिए स्वरोजगार से जुड़े 654 लोग, कागज और स्टेशनरी व्यवसाय से जुड़े 2,509 लोग और लकड़ी से बने फर्नीचर के कारोबार से जुड़े 163 लोग शामिल हैं। इस योजना के तहत वितरित की जाने वाली धनराशि

का उद्देश्य इन उद्यमियों को स्वरोजगार की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम उठाने में मदद करना है। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने एक लाख सरकारी नौकरियों देने का वादा किया था। एक वादा जिसे एक लाख उम्मीदवारों की भर्ती के साथ सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने अतिरिक्त 40,000 सरकारी नौकरियां प्रदान करने के इस वादे को और आगे बढ़ाया है। उन्होंने असम सीधी भर्ती परीक्षा, शिक्षक भर्ती और चल रही पुलिस भर्ती सहित कई भर्ती अभियानों के सफल समापन का उल्लेख किया, जिससे राज्य के युवाओं का मनोबल बढ़ा है। पारदर्शिता पर जोर देते हुए डॉ. शर्मा ने कहा कि प्रत्येक भर्ती प्रक्रिया बिना किसी कदाचार के आयोजित की गई है, जिससे सिस्टम में विश्वास पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी कर्मियों से लेकर आशा कर्मी तक, साथ ही असम लोक सेवा आयोग में भर्ती में भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया है। विशेष रूप से

असम का भाजपा सदस्यता अभियान देश में अब्वल : सीएम

गुवाहाटी (हि.स.)। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि असम प्रदेश भाजपा सदस्यता अभियान में देश भर में पहले स्थान पर है। भाजपा के सदस्यों की संख्या 53 लाख की सीमा को पार कर चुकी है। उन्होंने कहा कि असम को दिए गए लक्ष्य के अनुरूप 85 फीसदी सदस्य बनाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री आज प्रदेश भाजपा मुख्यालय अटल बिहारी वाजपेयी भवन में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भवेश



कलित भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम के 126 विधानसभा क्षेत्र में से 70 क्षेत्रों में 40 हजार से अधिक सदस्य बनाए जा

राज्य में 4 से चालू हो जाएंगे 39 उप-जिले

गुवाहाटी। प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए गठित असम के 39 उप-जिले 4 अक्टूबर से क्रियाशील हो जाएंगे। एक आधिकारिक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। इसमें कहा गया है कि इन उप-जिलों का मुख्यालय, जिसे असमिया में जामा-जिला कहा जाता है, भी उसी दिन चालू हो जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त और सचिव एमएस मणिवन्मन द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना में कहा गया है कि असम के राज्यपाल को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि उप-जिलों

मुख्यमंत्री ने संसद में राष्ट्रव्यापी एनआरसी पर बहस का आह्वान किया

गुवाहाटी। भारत की संसद को एनआरसी के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन पर बहस करनी चाहिए। यह बात मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने 30 सितंबर को गुवाहाटी में कही। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश में अशांति के परिणामस्वरूप सुरक्षाकर्मियों नियमित रूप से बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ रहे हैं। वे पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा की सीमाओं को पार करके पूरे देश में फैल गए। भारत में रहने के कुछ हफ्ते बाद, वे भारतीय पहचान पत्र बनाते हैं और भारतीय नागरिक के रूप में यहां बस जाते हैं। इस जोखिम भरे चलन के परिणामस्वरूप विभिन्न राज्यों की जनसांख्यिकी बदल रही है।



शेष पृष्ठ दो पर

बुलडोजर कार्रवाई पर राज्य सरकार को एससी का नोटिस, तीन हफ्ते में मांगा जवाब

नई दिल्ली। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को असम सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी। असम के सोनपुर के रहने वाले 47 लोगों ने देश की शीर्ष अदालत में अवमानना याचिका दाखिल की है। सोमवार को जस्टिस बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने मामले की सुनवाई की। अब असम सरकार को तीन सप्ताह में अपना जवाब



दाखिल करना होगा। याचिकाकर्ताओं ने याचिका में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद उनके निर्माण को ढहाया गया है। इस दौरान अधिकारियों ने कानूनी प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। याचिकाकर्ताओं ने बुलडोजर कार्रवाई को अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी बताया। असम सरकार ने आदिवासी जमीन पर अवैध अतिक्रमण बताते हुए कामरूप जिले कचुटोली पाथर गांव व अन्य जगह पर 47 घरों में तोड़फोड़ की थी। हालांकि याचिकाकर्ताओं का कहना

ईरान का धोखा : गाजा और लेबनान में मदद के लिए नहीं उतारेगा लड़ाके

तेहरान। इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को मारने के बाद इजराइली सेना दक्षिणी लेबनान में छापेमारी कर बॉर्डर पर बनी सुरगों पर स्ट्राइक कर रही है। आईडीएफ की ये रेड बॉर्डर एरिया में हिजबुल्लाह की ऑपरेशन कैम्पिस्टों को नुकसान पहुंचाने के प्लान का हिस्सा है। वहीं ईरान ने गाजा और लेबनान में अपने लड़ाके नहीं उतारने की बात कहकर हिजबुल्लाह को बड़ा झटका दिया है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि इजराइल की तरफ से यह



कार्रवाई ग्राउंड इन्वेज्शन यानी जमीनी आक्रमण की तैयारी हो सकती है, जो शायद इसी सप्ताह हो सकती है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने सोमवार को गुवाहाटी में कहा कि इजराइल को बड़ा झटका दिया है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि इजराइल की तरफ से यह

कांग्रेस के कार्यकाल में रिश्त के बिना किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिली : सीएम

गुवाहाटी। असम में कांग्रेस के पूर्ववर्ती शासन के दौरान किसी को भी रिश्त दिए बिना सरकारी नौकरी नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने सोमवार को कहा कि उनका लक्ष्य अपने कार्यकाल में दो लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। युवा उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद से राज्य में 1.4 लाख युवाओं को नौकरियां मिल चुकी हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस शासन के दौरान युवाओं को यह विश्वास नहीं था कि



चंडीगढ़ (हि.स.)। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अनिर्वर योजना को हरियाणा के युवाओं के साथ धोखा बताया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के चुनाव में अब सीधा मुकाबला भाजपा व कांग्रेस के बीच है, बाकि सभी छोटी-छोटी पार्टियों को भाजपा ने मैदान में उतारा है। यहां लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच सिर्फ विचारधारा की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को अंबाला जिले के नारायणगढ़ में विजय संकल्प रैली



को संबोधित कर रहे थे। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी साथ थीं और उन्होंने भी संबोधित किया। रैली के बाद राहुल गांधी व प्रियंका गांधी की यात्रा अंबाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर से होकर गुजरी। इस दौरान राहुल और प्रियंका ने 12 विधानसभा सीटें कवर कीं और प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में टिवटर) पर की। उन्होंने कहा कि मिथुन चक्रवर्ती को यह पुरस्कार उनके लंबे और प्रेरणादायक सिनेमाई सफर के लिए दिया जा रहा है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा, जो 8 अक्टूबर, 2024 को

मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित



नई दिल्ली। भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को उनके अद्वितीय योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस सम्मान की घोषणा केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में सोशल मीडिया

सऊदी प्रिंस के बयान से मुस्लिम वर्ल्ड में भूचाल, कहा- मुझे फिलीस्तीन में कोई रुचि नहीं

रियाद। सऊदी अरब को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के हालिया बयान ने मुस्लिम देशों में हलचल मचा दी है। अमेरिकी पत्रिका द अटलांटिक की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एमबीएस ने फिलिस्तीन को लेकर खुलकर कहा कि यह मुद्दा उनकी प्राथमिकता में नहीं है। यह बयान जनवरी 2024 में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटीनी ब्लिंकन के सऊदी दौर के दौरान हुआ था, जहां इजरायल और फिलिस्तीन के बीच जारी संघर्ष पर चर्चा की गई थी। द अटलांटिक की रिपोर्ट के अनुसार,



40 वर्षीय क्राउन प्रिंस ने कहा कि सऊदी अरब के 70 फीसदी लोग युवा हैं और इन लोगों को फिलिस्तीन के संघर्ष के बारे में अधिक जानकारी

नहीं है। एमबीएस ने यह भी कहा कि उनके या सऊदी नागरिकों के लिए फिलिस्तीन का मुद्दा उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उनका ध्यान अन्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर है। उन्होंने कहा कि मरे देश के ज्यादातर लोग फिलिस्तीन के बारे में केवल इजरायली हमलों के कारण जान रहे हैं, इसलिए यह उनके लिए प्राथमिक मुद्दा नहीं है। यही कारण है कि मेरी भी फिलिस्तीन को लेकर व्यक्तिगत रूप से ज्यादा रुचि नहीं है। हालांकि, एमबीएस ने यह भी संकेत दिया कि

बिहार में बाढ़ से हाहाकार, भाजपा ने 14 जिलों में रोका सदस्यता अभियान

पटना। बिहार में बाढ़ ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। इसके देखते भाजपा ने वहां के 14 जिलों में सदस्यता अभियान स्थगित कर दिया है। पदाधिकारियों से कहा है कि वो बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद करें। इन 14 जिलों में सदस्यता अभियान का समय बढ़ाया गया है। अब 15 अक्टूबर की जगह 24 अक्टूबर तक अभियान चलेगा। पूरे देश में भाजपा के सदस्यता अभियान का पहला चरण 15 अक्टूबर तक पूरा होगा। करीब 9 करोड़ सदस्य बनाने का भाजपा का लक्ष्य है। 2014 के सदस्यता अभियान में 11 करोड़ लोग जुड़े थे। इस बार भी लक्ष्य 11 करोड़ तक सदस्य बनाने का है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार, जम्मू कश्मीर, झारखंड, हरियाणा और



महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के कारण यहां सदस्यता अभियान नहीं चल रहा है। अनुमान है कि इन 4 राज्यों को मिला दिया जाए तो यहां लगभग 2 करोड़ सदस्य बन जाएंगे। पार्टी इस बार का

S.S. Traders
Suppliers in : All kinds of Door Fittings Modular Kitchen & Accessories, etc.
D. Neog Path, Near Dona Planet ABC, G.S. Road, Guwahati - 05
97079-99344

सुप्रभात
ऋण, शत्रु और रोग को समाप्त कर देना चाहिए।
- आचार्य चाणक्य

न्यूज गैलरी
मणिपुर में छह महीने के लिए बढ़ाई गई अफस्पा

इंफाल। मणिपुर सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (अफस्पा) को छह महीने के लिए और बढ़ा दिया है। राज्य सरकार के गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार, विस्तार 1 अक्टूबर से लागू होगा। यह कदम पूर्वोत्तर राज्य में जारी जातीय हिंसा के बीच उठाया गया है। यह निर्णय इंफाल घाटी के अंतर्गत आने वाले 19 पुलिस थाना क्षेत्रों

केंद्रीय वित्त मंत्री दो दिवसीय दौरे पर अरुणाचल पहुंची

इटानगर (हि.स.)। केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण दो दिवसीय दौरे पर सोमवार को अरुणाचल प्रदेश पहुंची हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी परियोजनाओं की समीक्षा और प्रचार-प्रसार के लिए दो दिवसीय यात्रा पर आज दोपहर इटानगर के दोनो पोला हवाई अड्डे

शेष पृष्ठ दो पर

CLASSIFIED

For all kinds of classified advertisements please contact

97070-14771
86382-00107

MURTI AVAILABLE

Available all kinds of Marble & White Metal Murties, Ganesh Laxmi, Radha Krishna, Bishnu-Laxmi, Hanuman, Maa Durga, Saraswati, Shivaling, Nandi etc.

ARTICLE WORLD, S-29C, 2nd Floor, Shoppers Point, Fancy Bazar, Guwahati-01, Ph. : 94350-48866, 94018-06952

सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए निर्मला पर दर्ज नहीं होगी एफआईआर कर्नाटक एचसी ने लगाई अंतरिम रोक

कानून का शासन जरूरी : राष्ट्रपति

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को कहा कि आर्थिक व सामाजिक विकास केवल तभी संभव है, जब कानून का शासन स्थापित हो। यह बात राष्ट्रपति ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के प्रशिक्षुओं के एक समूह को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने, न्याय सुनिश्चित करने और नागरिक अधिकारों की रक्षा किए बिना प्रगति एक अर्थहीन शब्द बन जाता है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर राष्ट्रपति ने कहा कि यह एक गंभीर समस्या है, जिसकी एक बीमार मानसिकता के साथ-साथ यूपीए के लिए नाहरकटिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां से सभी को उन्नत चिकित्सा के लिए डिब्रुगढ़ असम चिकित्सा महाविद्यालय भेजा गया। जहां पर इलाज के दौरान 2 साल की बच्ची विदुस्मिता तांती की मौत हो गई। वहीं, किशोरी रूकुमणी और देवेन्द्र तांती दास (55) का गंभीर अस्थ्था में इलाज चल रहा है।



एफआईआर में नाम है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी द्वारा आपति दर्ज किए जाने तक, प्रथम दृष्टया भी जांच की अनुमति देना, कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। इसलिए मैं अगली सुनवाई की तारीख तक मामलों में आगे की जांच को रोकना उचित समझता हूँ। इससे पहले शुक्रवार को बेंगलुरु की एक अदालत ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कथित रूप से जबरन वसूली करने के लिए निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। बता दें कि जनाधिकार संघर्ष परिषद (जेएसपी) के सह-अध्यक्ष आदर्श आग अय्यर ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि व्यक्तियों ने चुनावी बॉन्ड की आड़ में जबरन वसूली की और 8000 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ उठाया।

सड़क दुर्घटना में एक बच्ची की मौत, दो घायल

डिब्रूगढ़ (हिंस)। डिब्रूगढ़ जिले के पानीबुरा गांव के धमन से नाहरकटिया को जोड़ने वाली सड़क पर हुई सड़क दुर्घटना में एक बच्ची की मौत हो गई जबकि, दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि सोमवार को शिवसागर से दुलियाजान की ओर जा रही कार (एएस-06एएफ-8600) एक साइकिल सवार एक किशोरी को टोकर मारने के बाद अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित घर के आंगन में खल रही एक बच्ची और एक व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस को टीम ने सभी घायलों को इलाज के लिए नाहरकटिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां से सभी को उन्नत चिकित्सा के लिए डिब्रूगढ़ असम चिकित्सा महाविद्यालय भेजा गया। जहां पर इलाज के दौरान 2 साल की बच्ची विदुस्मिता तांती की मौत हो गई। वहीं, किशोरी रूकुमणी और देवेन्द्र तांती दास (55) का गंभीर अस्थ्था में इलाज चल रहा है।

डॉक्टर ने एट्रियल फाइब्रिलेशन का इलाज करने के लिए क्रायोबलून एब्लेशन पर की चर्चा

गुवाहाटी। एट्रियल फाइब्रिलेशन (77) एक प्रगतिशील स्थिति है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है, जिससे अनियमित दिल की धड़कनें होती हैं। इसके सबसे सामान्य लक्षणों में धड़कनों का तेज होना, थकान और सांस फूलना शामिल है। अगर इसका इलाज न किया जाए, तो एएफ स्ट्रोक, हृदय विफलता और अन्य जटिलताओं का खतरा बढ़ सकता है। अक्सर इलाज के रूप में पहले दवाओं का उपयोग किया जाता है, लेकिन कुछ मरीजों को उनके लक्षणों को नियंत्रित करने और स्ट्रोक जैसी जटिलताओं से बचने के लिए अतिरिक्त हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। क्रायोबलून एब्लेशन (857), एक न्यूनतम आक्रमक

प्रक्रिया है, जो (सीए) को नियंत्रित करने के लिए दवाओं का एक विकल्प प्रदान करती है और इसके कई लाभ हैं। एएफ के किसी भी इलाज का मुख्य उद्देश्य लक्षणों को कम करना, रक्त के थक्कों को रोकना, दिल की धड़कन को नियंत्रित करना और दिल की लय को फिर से सेट करना है ताकि हृदय के ऊपरी (एट्रिया) और निचले (वेंट्रिकल) कक्ष बेहतर ढंग से एक साथ काम कर सकें। (54 का उद्देश्य अवांछित विद्युत संकेतों को रोकना है, जो ज्यादातर असामान्य दिल की धड़कनें पैदा करते हैं, और ये संकेत पर्याप्तरी स्तों (जो बाएं ऊपरी कक्ष तक रक्त पहुंचाती हैं) में उत्पन्न होते हैं।

कार से मवेशी बरामद, तस्कर गिरफ्तार

नगांव (हिंस)। नगांव जिले के रुपहीहाट के हाथीपुखरी इलाके से पुलिस ने एक कार से मवेशी समेत एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि स्थानीय रात गुप्त सूचना के आधार पर भारतीय लोगों की मदद से चलाए गए अभियान के दौरान स्विफ्ट कार (एएस-02एडी-9567) से मवेशी बरामद किया। इस मामले में पशु तस्कर वहिदुर रहमान को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। राज्य में सख्त पशु

पृष्ठ एक का शेष

पारदर्शिता के नए ...

से असम सीधी भर्ती परीक्षा ने उम्मीदवारों को अपने प्रश्नपत्र पर ले जाने और सत्यापन के लिए ओएमआर शीट तक पहुंचने का विकल्प प्रदान करके नए मानक स्थापित किए हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार, असम भ्रष्टाचार और नकारात्मकता के युग को पीछे छोड़ रहा है और अब शांति, स्थिरता और विकास के पथ पर अग्रसर है। डॉ. शर्मा ने सार्वजनिक क्षेत्र में भर्ती और उद्यमिता के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए वर्तमान राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में भी बताया। उन्होंने जाम्गिरोड में हाल ही में एक सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई की स्थापना पर प्रकाश डाला, जो औद्योगिक विकास के लिए राज्य के प्रयासों को दर्शाता है। मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान के बारे में बोलते हुए, मुख्यमंत्री ने बताया कि सामान्य योग्यता वाले उद्यमियों को मिलने वाले दो लाख रुपये में से केवल एक लाख रुपये ही चुकाने होंगे, जो कि धन प्राप्ति को इलाज के तौर पर शुरू होने वाले पांच साल की अवधि में आसान किस्तों में चुकाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार चयनित उद्यमियों के लिए जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रही है ताकि उनकी सफलता की संभावनाएं बढ़ाई जा सकें। प्रशिक्षण पूरा होने पर, इन उद्यमियों को नवंबर में 25,000 युवाओं की दूसरी किस्त मिलेगी। जबकि, उनकी प्रगति के आधार पर एक लाख रुपये की अंतिम किस्त वितरित की जाएगी। पेशेवर योग्यता वाले लोगों को अंतिम किस्त के हिस्से के रूप में अतिरिक्त चार लाख रुपये मिलेंगे। डॉ. शर्मा ने घोषणा की कि 5 अक्टूबर को राज्य सरकार शेष 75,000 युवाओं के लिए इस योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि एक बार जब एक लाख युवा मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान के तहत सफलतापूर्वक उद्यमी बन जाएंगे, तो कार्यक्रम के अगले चरण में अन्य एक लाख युवाओं को भी इसी तरह का लाभ दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जिम्मा करते हुए मुख्यमंत्री ने चयनित उद्यमियों को मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान के तहत प्राप्त धन का प्रभावी उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि वे बाद में बैंकों से 20 लाख रुपये तक के ऋण के लिए पात्र हो सकें। उन्होंने कहा कि राज्य में वित्तीय संस्थानों ने उद्यमियों को प्रदान किए जाने वाले ऋणों की मात्रा में लगातार वृद्धि की है, बैंकों ने इस वर्ष 31 मार्च तक सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 29,000 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए हैं। इसके अतिरिक्त, पिछले वित्तीय वर्ष में छोटे और मध्यम उद्यमों और व्यवसायों को 37,000 करोड़ रुपये वितरित किए गए थे। युवाओं को प्रतिकूल परिस्थितियों का डटकर सामना करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए डॉ. शर्मा ने उन्हें याद दिलवाया कि जो लोग निराशा के आगे नहीं झुकते और अपने सपनों के लिए काम करना जारी रखते हैं, वे ही अंततः सफल होते हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियां स्थिर आय प्रदान करती हैं, लेकिन वे हमेशा व्यक्तियों को अपनी पूरी क्षमता हासिल करने की अनुमति नहीं दे सकती हैं। इसके विपरीत, उद्यमिता व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए असौमित संभावनाएं प्रदान करती है। इस संदर्भ में, मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित चयनित उद्यमियों से आग्रह किया कि वे स्वयं नियोक्ता बनने की आकांक्षा रखें, जिससे आत्मनिर्भर असम के व्यापक दृष्टिकोण में योगदान मिल सके। पर्यावरण एवं वन मंत्री चंद्र मोहन पट्टराय, शिक्षा मंत्री डॉ. रजो ज पेगु, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री रंजीत कुमार दास, वित्त मंत्री अजंता नेओग, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री अशोक सिंघल, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री बिमल बोरा, जल संसाधन मंत्री पीयूष हजारिका, पर्यटन मंत्री जयंत मल्लबरवा, कृषि मंत्री अनुल बोरा, परिवहन मंत्री केशव महंत, हथकरघा एवं कपड़ा मंत्री यूजी ब्रह्म, बिजली मंत्री नंदिता गालोसा, चाय जनजाति कल्याण मंत्री संजय किसान, सांसद, असम प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और विधायक भवेश कलिता, मुख्य सचिव डॉ. रवि कोटा और अन्य गणमान्य व्यक्ति आज के कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

राज्य में 4 से ...

को असमिया में जामा-जिला के रूप में जाना जाता है और निम्नलिखित उप-जिलों के 39 जामा-जिला मुख्यालय के साथ जनहित में 4 अक्टूबर 2024 से कार्यात्मक हो जाएंगे। उप-जिलों का नेतृत्व एक सहायक जिला आयुक्त करेंगे तथा दो सहायक आयुक्तों के अलावा विभिन्न संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उनकी सहायता करेंगे। राज्य सरकार ने पहले प्रशासनिक सुविधा के लिए उप-जिलों के निर्माण का निर्णय लिया था, ताकि जमीनी स्तर पर अधिकतम तालमेल, उत्पादकता और दक्षता प्राप्त की जा सके और एक अच्छे नागरिक-केन्द्रित प्रशासन को सहायता की जा सके।

असम का भाजपा ...

चुके हैं। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान में डिब्रूगढ़ विधानसभा क्षेत्र सबसे आगे है, जबकि मरियानी में सदस्यों की संख्या अबतक सबसे कम है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ ही उससे और अधिक सदस्य बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार पूरी तरह डिजिटल तरीके से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। एक मोबाइल नंबर के एक्ज में एक ही सदस्य बनाए जा सकते हैं। ओटीपी के द्वारा ही सदस्यता फॉर्म भरा जाता है। हालांकि, उन्होंने कहा कि यदि पुराने तरीके से सदस्यता अभियान चलाया गया होता तो अबतक

सदस्यों की संख्या और अधिक हो सकती थी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में सभी के पास मोबाइल फोन नहीं होने के कारण परेशानी हो रही है। एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि 53 लाख लोगों को मुख् नहीं बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसको लेकर चाहे जितनी ही आलोचना करे, लेकिन भाजपा अपने अभियान में जुटी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को भाजपा की आलोचना करने की जगह कांग्रेस का अभियान बेहतर तरीके से चलना चाहिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के अन्य कोई प्रश्नों के भी उत्तर दिए।

मुख्यमंत्री ने संसद में ...

इसलिए, सीएम शर्मा ने कहा कि यह सही समय है कि संसद में राष्ट्रव्यापी एनआरसी पर बहस होनी चाहिए। इस बीच, असम पुलिस ने 29 सितंबर को सुबह बांग्लादेश से आए चार घुसपैठियों को हिरासत में लिया, जो कश्मिर तौर पर करीमनाज जिले के जरिए बिना अनुमति के भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने खुलासा किया कि पुलिस अभियान के परिणामस्वरूप उन्हें तुरंत बांग्लादेश वापस भेज दिया गया। घुसपैठियों की पहचान तुली अख्तर, शेख रिया, खातून इवा और खातून ताहुरा के रूप में हुई है।

बुलडोजर कार्रवाई पर ...

है कि उन्होंने वास्तविक भूमिधारकों के साथ समझौतों के तहत दशकों से यहां रह रहे हैं। समझौते के मुताबिक उनका कब्जा भी वैध है। बता दें कि 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ अंतरिम आदेश पारित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिना अदालत के अनुमति के कोई भी सर्वेक्षण की कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने यह स्पष्ट किया था कि उसका यह आदेश फुटपाथ, रेलवे और अवैध अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा।

ईरान का धोखा : गाजा ...

हिजबुल्लाह के महासचिव हसन नसरुल्लाह की भी मौत हो गई। लेबनान में हिजबुल्लाह समूह और यमनी हथी आंदोलन पर इजरायली हमलों की बढ़ती गति ने यह आशंका पैदा कर दी है कि मध्य पूर्व में लड़ाई नियंत्रण से बाहर हो जाएगी और ईरान के साथ-साथ अमेरिका भी इस लड़ाई में शामिल हो जाएगी। लेकिन कनानी ने सीधे तौर पर ईरान के जंग में कूदने से इनकार करते हुए कहा कि गाजा या लेबनान में ईरान से सैनिकों को भेजने की जरूरत नहीं है क्योंकि हिजबुल्लाह और हमस के लड़ाके इजराइली आक्रमण का सामना करने के लिए सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि हम दृढ़ता से निपटेंगे और इस तरह से काम करेंगे, जिससे दुश्मन को पछताना पड़े। उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन वह इससे डरता भी नहीं है। कनानी ने उन हमलों का जिम्मा करते हुए कहा कि ईरान लेबनानी अधिकारियों के साथ मामलों पर बारीकी से नजर रख रहा है, जिसमें नसरुल्लाह और निलफोरशान की मौत हो गई थी। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर मेजर जनरल होसन सलामी ने पुष्टि की है कि इजराइली हमले में हसन नसरुल्लाह के साथ ही रिवोल्यूशनरी गार्ड के कुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अब्बास निलफोरशान की भी मौत हो गई है, उन्होंने कहा है कि दोनों की हत्या इस्लामी दुनिया में एक ऐतिहासिक परिवर्तन लाएगा। मेजर जनरल सलामी ने इस्फहन प्रांत में ब्रिगेडियर जनरल निलफोरशान के घेर से बचाने में कहा कि हसन नसरुल्लाह और ब्रिगेडियर जनरल निलफोरशान का खून बहुत कीमती है और हम इन शहीदों के रास्ते पर चलते रहेंगे, शहादत सबसे अच्छा भाग्य था, जो उनके लिए हो सकता था।

कांग्रेस के कार्यकाल में...

उन्हें शिवत दिए बिना सरकारी नौकरी मिलेगी। कम वेतन वाली नौकरियों के लिए भी उन्हें एक करोड़ रुपये की शिवत देनी पड़ती थी। शर्मा ने आरोप लगाया कि असम लोक सेवा आयोग (एपीएससी) के अध्यक्ष पद के लिए, कांग्रेस सरकार ने उन लोगों को चुना था जो नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों से पैसा इकट्ठा कर सकते थे। उन्होंने कहा कि कांटों से भरा युग बीत चुका है। अब, हम बिना किसी शिवत के पारदर्शी तरीके से भर्ती परीक्षा आयोजित करने में सक्षम हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1.4 लाख युवाओं को पहले ही एक लाख के लक्ष्य के मुकाबले सरकारी नौकरियां मिल चुकी हैं, और सरकार अब 2026 तक दो लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य बना रही है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 2021 में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान असम में हर साल एक लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन बाद में संशोधित किया कि यह आंकड़ा पूरे पांच साल के कार्यकाल के लिए था। शर्मा ने मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभिजन (सीएमएएए) कार्यक्रम के तहत, 25,000 से अधिक युवाओं में से प्रत्येक को 75,000 रुपये की पहली किस्त का अंतरण शुरू किया ताकि वे अपना उद्यम शुरू कर सकें। शर्मा ने कहा कि युवाओं को सशक्त बनाकर असम में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने पर हमारी सरकार का ध्यान है। हमारे युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं सीएमएएए के तहत अनुदान वितरित कर रहा हूँ।

चुनाव में कांग्रेस व...

देते हुए कहा कि यह जवानों की पेंशन चोरी का तरीका है। राहुल गांधी ने

कहा कि हरियाणा में अडाणी की सरकार नहीं चाहिए। किसानों, मजदूरों की सरकार बनेगी। हरियाणा में सरकार बनेगी, तो 36 विरादरी की सरकार बनेगी। सबकी सरकार बनेगी। सबकी बराबर भागीदारी होगी। ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं ये भाजपा की पार्टी हैं। लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। लड़ाई सिर्फ विचारधारा की है। राहुल गांधी ने किसानों से कहा कि आप खेती करवो, छेठा छेठा बिजनेस चलावो हो। आपको दबाया जाता है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, हिंदुस्तान के सगरे बड़े 250 कॉर्पोरेट्स हैं, उसमें कितने दलित, पिछड़े हैं। ये कॉर्पोरेट वाले ही कानून बनवाते हैं, उनमें कोई दलित पिछड़ा है ही नहीं। तो आपकी कौन सुनेगा। राहुल ने कहा कि अगर अडाणी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है, तो आपसे सवाल पूछता हूँ, हिंदुस्तान के सगरे बड़े 250 कॉर्पोरेट्स हैं, उसमें कितने दलित, पिछड़े हैं। ये कॉर्पोरेट वाले ही कानून बनवाते हैं, उनमें कोई दलित पिछड़ा है ही नहीं। तो आपकी कौन सुनेगा। राहुल ने कहा कि अगर अडाणी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है, तो आपसे सवाल पूछता हूँ, हिंदुस्तान के सगरे बड़े 250 कॉर्पोरेट्स हैं, उसमें कितने दलित, पिछड़े हैं। ये कॉर्पोरेट वाले ही कानून बनवाते हैं, उनमें कोई दलित पिछड़ा है ही नहीं। तो आपकी कौन सुनेगा। राहुल ने कहा कि अगर अडाणी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है, तो आपसे सवाल पूछता हूँ, हिंदुस्तान के सगरे बड़े 250 कॉर्पोरेट्स हैं, उसमें कितने दलित, पिछड़े हैं। ये कॉर्पोरेट वाले ही कानून बनवाते हैं, उनमें कोई दलित पिछड़ा है ही नहीं। तो आपकी कौन सुनेगा। राहुल ने कहा कि अगर अडाणी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है, तो आपसे सवाल पूछता हूँ, हिंदुस्तान के सगरे बड़े 250 कॉर्पोरेट्स हैं, उसमें कितने दलित, पिछड़े हैं। ये कॉर्पोरेट वाले ही कानून बनवाते हैं, उनमें कोई दलित पिछड़ा है ही नहीं। तो आपकी कौन सुनेगा। राहुल ने कहा कि अगर अडाणी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है, तो आपसे सवाल पूछता हूँ, हिंदुस्तान के सगरे बड़े 250 कॉर्पोरेट्स हैं, उसमें कितने दलित, पिछड़े हैं। ये कॉर्पोरेट वाले ही कानून बनवाते हैं, उनमें कोई दलित पिछड़ा है ही नहीं। तो आपकी कौन सुनेगा। राहुल ने कहा कि अगर अडाणी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है, तो आपसे सवाल पूछता हूँ, हिंदुस्तान के सगरे बड़े 250 कॉर्पोरेट्स हैं, उसमें कितने दलित, पिछड़े हैं। ये कॉर्पोरेट वाले ही कानून बनवाते हैं, उनमें कोई दलित पिछड़ा है ही नहीं। तो आपकी कौन सुनेगा। राहुल ने कहा कि अगर अडाणी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है, तो आपसे सवाल पूछता हूँ, हिंदुस्तान के सगरे बड़े 250 कॉर्पोरेट्स हैं, उसमें कितने दलित, पिछड़े हैं। ये कॉर्पोरेट वाले ही कानून बनवाते हैं, उनमें कोई दलित पिछड़ा है ही नहीं। तो आपकी कौन सुनेगा। राहुल ने कहा कि अगर अडाणी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है, तो आपसे सवाल पूछता हूँ, हिंदुस्तान के सगरे बड़े 250 कॉर्पोरेट्स हैं, उसमें कितने दलित, पिछड़े हैं। ये कॉर्पोरेट वाले ही कानून बनवाते हैं, उनमें कोई दलित पिछड़ा है ही नहीं। तो आपकी कौन सुनेगा। राहुल ने कहा कि अगर अडाणी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है, तो आपसे सवाल पूछता हूँ, हिंदुस्तान के सगरे बड़े 250 कॉर्पोरेट्स हैं, उसमें कितने दलित, पिछड़े हैं। ये कॉर्पोरेट वाले ही कानून बनवाते हैं, उनमें कोई दलित पिछड़ा है ही नहीं। तो आपकी कौन सुनेगा। राहुल ने कहा कि अगर अडाणी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है, तो आपसे सवाल पूछता हूँ, हिंदुस्तान के सगरे बड़े 250 कॉर्पोरेट्स हैं, उसमें कितने दलित, पिछड़े हैं। ये कॉर्पोरेट वाले ही कानून बनवाते हैं, उनमें कोई दलित पिछड़ा है ही नहीं। तो आपकी कौन सुनेगा। राहुल ने कहा कि अगर अडाणी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है, तो आपसे सवाल पूछता हूँ, हिंदुस्तान के सगरे बड़े 250 कॉर्पोरेट्स हैं, उसमें कितने दलित, पिछड़े हैं। ये कॉर्पोरेट वाले ही कानून बनवाते हैं, उनमें कोई दलित पिछड़ा है ही नहीं। तो आपकी कौन सुनेगा। राहुल ने कहा कि अगर अडाणी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है, तो आपसे सवाल पूछता हूँ, हिंदुस्तान के सगरे बड़े 250 कॉर्पोरेट्स हैं, उसमें कितने दलित, पिछड़े हैं। ये कॉर्पोरेट वाले ही कानून बनवाते हैं, उनमें कोई दलित पिछड़ा है ही नहीं। तो आपकी कौन सुनेगा। राहुल ने कहा कि अगर अडाणी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है, तो आपसे सवाल पूछता हूँ, हिंदुस्तान के सगरे बड़े 250 कॉर्पोरेट्स हैं, उसमें कितने दलित, पिछड़े हैं। ये कॉर्पोरेट वाले ही कानून बनवाते हैं, उनमें कोई दलित पिछड़ा है ही नहीं। तो आपकी कौन सुनेगा। राहुल ने कहा कि अगर अडाणी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है, तो आपसे सवाल पूछता हूँ, हिंदुस्तान के सगरे बड़े 250 कॉर्पोरेट्स हैं, उसमें कितने दलित, पिछड़े हैं। ये कॉर्पोरेट वाले ही कानून बनवाते हैं, उनमें कोई दलित पिछड़ा है ही नहीं। तो आपकी कौन सुनेगा। राहुल ने कहा कि अगर अडाणी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है, तो आपसे सवाल पूछता हूँ, हिंदुस्तान के सगरे बड़े 250 कॉर्पोरेट्स हैं, उसमें कितने दलित, पिछड़े हैं। ये कॉर्पोरेट वाले ही कानून बनवाते हैं, उनमें कोई दलित पिछड़ा है ही नहीं। तो आपकी कौन सुनेगा। राहुल ने कहा कि अगर अडाणी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है, तो आपसे सवाल पूछता हूँ, हिंदुस्तान के सगरे बड़े 250 कॉर्पोरेट्स हैं, उसमें कितने दलित, पिछड़े हैं। ये कॉर्पोरेट वाले ही कानून बनवाते हैं, उनमें कोई दलित पिछड़ा है ही नहीं। तो आपकी कौन सुनेगा। राहुल ने कहा कि अगर अडाणी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है, तो आपसे सवाल पूछता हूँ, हिंदुस्तान के सगरे बड़े 250 कॉर्पोरेट्स हैं, उसमें कितने दलित, पिछड़े हैं। ये कॉर्पोरेट वाले ही कानून बनवाते हैं, उनमें कोई दलित पिछड़ा है ही नहीं। तो आपकी कौन सुनेगा। राहुल ने कहा कि अगर अडाणी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है, तो आपसे सवाल पूछता हूँ, हिंदुस्तान के सगरे बड़े 250 कॉर्पोरेट्स हैं, उसमें कितने दलित, पिछड़े हैं। ये कॉर्पोरेट वाले ही कानून बनवाते हैं, उनमें कोई दलित पिछड़ा है ही नहीं। तो आपकी कौन सुनेगा। राहुल ने कहा कि अगर अडाणी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है, तो आपसे सवाल पूछता हूँ, हिंदुस्तान के सगरे बड़े 250 कॉर्पोरेट्स हैं, उसमें कितने दलित, पिछड़े हैं। ये कॉर्पोरेट वाले ही कानून बनवाते हैं, उनमें कोई दलित पिछड़ा है ही नहीं। तो आपकी कौन सुनेगा। राहुल ने कहा कि अगर अडाणी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है, तो आपसे सवाल पूछता हूँ, हिंदुस्तान के सगरे बड़े 250 कॉर्पोरेट्स हैं, उसमें कितने दलित, पिछड़े हैं। ये कॉर्पोरेट वाले ही कानून बनवाते हैं, उनमें कोई दलित पिछड़ा है ही नहीं। तो आपकी कौन सुनेगा। राहुल ने कहा कि अगर अडाणी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है, तो आपसे सवाल पूछता हूँ, हिंदुस्तान के सगरे बड़े 250 कॉर्पोरेट्स हैं, उसमें कितने दलित, पिछड़े हैं। ये कॉर्पोरेट वाले ही कानून बनवाते हैं, उनमें कोई दलित पिछड़ा है ही नहीं। तो आपकी कौन सुनेगा। राहुल ने कहा कि अगर अडाणी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है, तो आपसे सवाल पूछता हूँ, हिंदुस्तान के सगरे बड़े 250 कॉर्पोरेट्स हैं, उसमें कितने दलित, पिछड़े हैं। ये कॉर्पोरेट वाले ही कानून बनवाते हैं, उनमें कोई दलित पिछड़ा है ही नहीं। तो आपकी कौन सुनेगा। राहुल ने कहा कि अगर अडाणी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है, तो आपसे सवाल पूछता हूँ, हिंदुस्तान के सगरे बड़े 250 कॉर्पोरेट्स हैं, उसमें कितने दलित, पिछड़े हैं। ये कॉर्पोरेट वाले ही कानून बनवाते हैं, उनमें कोई दलित पिछड़ा है ही नहीं। तो आपकी कौन सुनेगा। राहुल ने कहा कि अगर अडाणी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है, तो आपसे सवाल पूछता हूँ, हिंदुस्तान के सगरे बड़े 250 कॉर्पोरेट्स हैं, उसमें कितने दलित, पिछड़े हैं। ये कॉर्पोरेट वाले ही कानून बनवाते हैं, उनमें कोई दलित पिछड़ा है ही नहीं। तो आपकी कौन सुनेगा। राहुल ने कहा कि अगर अडाणी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है, तो आपसे सवाल पूछता हूँ, हिंदुस्तान के सगरे बड़े 250 कॉर्पोरेट्स हैं, उसमें कितने दलित, पिछड़े हैं। ये कॉर्पोरेट वाले ही कानून बनवाते हैं, उनमें कोई दलित पिछड़ा है ही नहीं। तो आपकी कौन सुनेगा। राहुल ने कहा कि अगर अडाणी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है, तो आपसे सवाल पूछता हूँ, हिंदुस्तान के सगरे बड़े 250 कॉर्पोरेट्स हैं, उसमें कितने दलित, पिछड़े हैं। ये कॉर्पोरेट वाले ही कानून बनवाते हैं, उनमें कोई दलित पिछड़ा है ही नहीं। तो आपकी कौन सुनेगा। राहुल ने कहा कि अगर अडाणी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है, तो आपसे सवाल पूछता हूँ, हिंदुस्तान के सगरे बड़े 250 कॉर्पोरेट्स हैं, उसमें कितने दलित, पिछड़े हैं। ये कॉर्पोरेट वाले ही कानून बनवाते हैं, उनमें कोई दलित पिछड़ा है ही नहीं। तो आपकी कौन सुनेगा। राहुल ने कहा कि अगर अडाणी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है, तो आपसे सवाल पूछता हूँ, हिंदुस्तान के सगरे बड़े 250 कॉर्पोरेट्स हैं, उसमें कितने दलित, पिछड़े हैं। ये कॉर्पोरेट वाले ही कानून बनवाते हैं, उनमें कोई दलित पिछड़ा है ही नहीं। तो आपकी कौन सुनेगा। राहुल ने कहा कि अगर अडाणी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है, तो आपसे सवाल पूछता हूँ, हिंदुस्तान के सगरे बड़े 250 कॉर्पोरेट्स हैं, उसमें कितने दलित, पिछड़े हैं। ये कॉर्पोरेट वाले ही कानून बनवाते हैं, उनमें कोई दलित पिछड़ा है ही नहीं। तो आपकी कौन सुनेगा। राहुल ने कहा कि अगर अडाणी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है, तो आपसे सवाल पूछता हूँ, हिंदुस्तान के सगरे बड़े 250 कॉर्पोरेट्स हैं, उसमें कितने दलित, पिछड़े हैं। ये कॉर्पोरेट वाले ही कानून बनवाते हैं, उनमें कोई दलित पिछड़ा है ही नहीं। तो आपकी कौन सुनेगा। राहुल ने कहा कि अगर अडाणी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है, तो आपसे सवाल पूछता हूँ, हिंदुस्तान के सगरे बड़े 250 कॉर्पोरेट्स हैं, उसमें कितने दलित, पिछड़े हैं। ये कॉर्पोरेट वाले ही कानून बनवाते हैं, उनमें कोई दलित पिछड़ा है ही नहीं। तो आपकी कौन सुनेगा। राहुल ने कहा कि अगर अडाणी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है, तो आपसे सवाल पूछता हूँ, हिंदुस्तान के सगरे बड़े 250 कॉर्पोरेट्स हैं, उसमें कितने दलित, पिछड़े हैं। ये कॉर्पोरेट वाले ही कानून बनवाते हैं, उनमें कोई दलित पिछड़ा है ही नहीं। तो आपकी कौन सुनेगा। राहुल ने कहा कि अगर अडाणी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है, तो आपसे सवाल पूछता हूँ, हिंदुस्तान के सगरे बड़े 250 कॉर्पोरेट्स हैं, उसमें कितने दलित, पिछड़े हैं। ये कॉर्पोरेट वाले ही कानून बनवाते हैं, उनमें कोई दलित पिछड़ा है ही नहीं। तो आपकी कौन सुनेगा। राहुल ने कहा कि अगर अडाणी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है, तो आपसे सवाल पूछता हूँ, हिंदुस्तान के सगरे बड़े 250 कॉर्पोरेट्स हैं, उसमें कितने दलित, पिछड़े हैं। ये कॉर्पोरेट वाले ही कानून बनवाते हैं, उनमें कोई दलित पिछड़ा है ही नहीं। तो आपकी कौन सुनेगा। राहुल ने कहा कि अगर अडाणी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है, तो आपसे सवाल पूछता हूँ, हिंदुस्तान के सगरे बड़े 250 कॉर्पोरेट्स हैं, उसमें कितने दलित, पिछड़े हैं। ये कॉर्पोरेट वाले ही कानून बनवाते हैं, उनमें कोई दलित पिछड़ा है ही नहीं। तो आपकी कौन सुनेगा। राहुल ने कहा कि अगर अडाणी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है, तो आपसे सवाल पूछता हूँ, हिंदुस्तान के सगरे बड़े 250 कॉर्पोरेट्स हैं, उसमें कितने दलित, पिछड़े हैं। ये कॉर्पोरेट वाले ही कानून बनवाते हैं, उनमें कोई दलित पिछड़ा है ही नहीं। तो आपकी कौन सुनेगा। राहुल ने कहा कि अगर अडाणी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है, तो आपसे सवाल पूछता हूँ, हिंदुस्तान के सगरे बड़े 250 कॉर्पोरेट्स हैं, उसमें कितने दलित, पिछड़े हैं। ये कॉर्पोरेट वाले ही कानून बनवाते हैं, उनमें कोई दलित पिछड़ा है ही नहीं। तो आपकी कौन सुनेगा। राहुल ने कहा कि अगर अडाणी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है, तो आपसे सवाल पूछता हूँ, हिंदुस्तान के सगरे बड़े 250 कॉर्पोरेट्स हैं, उसमें कितने दलित, पिछड़े हैं। ये कॉर्पोरेट वाले ही कानून बनवाते हैं, उनमें कोई दलित पिछड़ा है ही नहीं। तो आपकी कौन सुनेगा। राहुल ने कहा कि अगर अडाणी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है, तो आपसे सवाल पूछता हूँ, हिंदुस्तान के सगरे बड़े 250 कॉर्पोरेट्स हैं, उसमें कितने दलित, पिछड़े हैं। ये कॉर्पोरेट वाले ही कानून बनवाते हैं, उनमें कोई दलित पिछड़ा है ही नहीं। तो आपकी कौन सुनेगा। राहुल ने कहा कि अगर अडाणी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है, तो आपसे सवाल पूछता हूँ, हिंदुस्तान के सगरे बड़े 250 कॉर्पोरेट्स हैं, उसमें कितने दलित, पिछड़े हैं। ये कॉर्पोरेट वाले ही कानून बनवाते हैं, उनमें कोई दलित पिछड़ा है ही नहीं। तो आपकी कौन सुनेगा। राहुल ने कहा कि अगर अडाणी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है, तो आपसे सवाल पूछता हूँ, हिंदुस्तान के सगरे बड़े 250 कॉर्पोरेट्स हैं, उसमें कितने दलित, पिछड़े हैं। ये कॉर्पोरेट वाले ही कानून बनवाते हैं, उनमें कोई दलित पिछड़ा है ही नहीं। तो आपकी कौन सुनेगा। राहुल ने कहा कि अगर अडाणी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है, तो आपसे सवाल पूछता हूँ, हिंदुस्तान के सगरे बड़े 250 कॉर्पोरेट्स हैं, उसमें कितने दलित, पिछड़े हैं। ये कॉर्पोरेट वाले ही कानून बनवाते हैं, उनमें कोई दलित पिछड़ा है ही नहीं। तो आपकी कौन सुनेगा। राहुल ने कहा कि अगर अडाणी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है, तो आपसे सवाल पूछता हूँ, हिंदुस्तान के सगरे बड़े 250 कॉर्पोरेट्स हैं, उसमें कितने दलित, पिछड़े हैं। ये कॉर्पोरेट वाले ही कानून बनवाते हैं, उनमें कोई दलित पिछड़ा है ही नहीं। तो आपकी कौन सुनेगा। राहुल ने कहा कि अगर अडाणी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है, तो आपसे सवाल पूछता हूँ, हिंदुस्तान के सगरे बड़े 250 कॉर्पोरेट्स हैं, उसमें कितने दलित, पिछड़े हैं। ये कॉर्पोरेट वाले ही कानून बनवाते हैं, उनमें कोई दलित पिछड़ा है ही नहीं। तो आपकी कौन सुनेगा। राहुल ने कहा कि अगर अडाणी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है, तो आपसे सवाल पूछता हूँ, हिंदुस्तान के सगरे बड़े 250 कॉर्पोरेट्स हैं, उसमें कितने दलित, पिछड़े हैं। ये कॉर्पोरेट वाले ही कानून बनवाते हैं, उनमें कोई दलित पिछड़ा है ही नहीं। तो आपकी कौन सुनेगा। राहुल ने कहा कि अगर अडाणी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है, तो आपसे सवाल पूछता हूँ, हिंदुस्तान के सगरे बड़े 250 कॉर्पोरेट्स हैं, उसमें कितने दलित, पिछड़े हैं। ये कॉर्पोरेट वाले ही कानून बनवाते हैं, उनमें कोई दलित पिछड़ा है ही नहीं। तो आपकी कौन सुनेगा। राहुल ने कहा कि अगर अडाणी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है, तो आपसे सवाल पूछता हूँ, हिंदुस्तान के सगरे बड़े 250 कॉ

चार बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजा बांग्लादेश : मुख्यमंत्री



गुवाहाटी (हिंस)। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि चार बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार कर उन्हें सीमा पार बांग्लादेश वापस भेज दिया गया। मुख्यमंत्री ने सोमवार को सोशल मीडिया के जरिए कहा कि हम घुसपैठ के खिलाफ पूरी तरह से जागरूक हैं। जिसके परिणामस्वरूप करीमगंज में भारत-बांग्लादेश सीमा पर असम पुलिस ने अख्तर, रिया शेख, ईवा खातून और ताहिरा खातून नामक चार बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया। बाद में उन्हें सीमा पार बांग्लादेश वापस भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं दिन-प्रतिदिन, अपने पुलिसकर्मियों के कार्य की सराहना करता हूँ, जिन्होंने सीमाओं की रक्षा करके घुसपैठ रोकने में सहायता की है।

कांग्रेस से असम का विकास देखा नहीं जाता : मुख्यमंत्री

गुवाहाटी (हिंस)। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस से असम का विकास देखा नहीं जाता है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर उद्योग का असम में आना कर्नाटक के मंत्री तथा मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र को रास नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज वह समय आ गया है जब कर्नाटक जैसे विकसित राज्य के मंत्री असम को तुलना कर्नाटक से कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आज यहाँ पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम लगातार विकास का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। एक लाख से अधिक बेरोजगारों को स्वच्छतापूर्वक नौकरियों दी गई है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि सांसद गौव गोगोई को कहीं न कहीं इस बात के लिए जलन हो रही है कि



उन्के पिता तरुण गोगोई के कार्यकाल में एक लाख लोगों को नौकरियों नहीं मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के समय में नौकरियों में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम में सेमीकंडक्टर उद्योग लगने से कर्नाटक में कार्यरत असम के युवक वापस आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि असम के लोगों के जरिए सेमीकंडक्टर उद्योग को चलाकर वह दिखा देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के पांच अग्रणी राज्यों की श्रेणी में असम को लाकर खड़ा करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के अन्य प्रश्नों के भी उत्तर दिए।

मुख्यमंत्री ने 25 हजार चयनित उद्यमियों को वित्तीय अनुदान की पहली किश्त प्रदान की

गुवाहाटी (हिंस)। मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम योजना के तहत मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने आज राजधानी के खानापाड़ा स्थित पशु चिकित्सा महाविद्यालय मैदान में आयोजित एक समारोह के दौरान लगभग 25 हजार चयनित उद्यमियों को वित्तीय अनुदान की पहली किश्त सौंपी। मुख्यमंत्री ने स्वरोजगार की सुविधा के लिए उद्यमियों को 2 लाख और 5 लाख रुपए की पहली किश्त के लिए 75 हजार रुपए प्रदान किए। इस अवसर पर असम सरकार के मंत्री रंजीत दास, अतुल कुमार बोरा, सांसद, विधायक भवेश कलिता और जिलों से मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम योजना के लिए चुने गए उद्यमी उपस्थित थे।

कोकराझाड़ में ग्रीन बोर्डोलैंड मिशन के तहत जलवायु परिवर्तन पर कार्यशाला शुरू

विकसित भारत समाचार कोकराझाड़। ग्रीन बोर्डोलैंड मिशन के तहत जलवायु परिवर्तन और जीवन और आजीविका पर इसके प्रभाव पर दो दिवसीय कार्यशाला आज कोकराझाड़, बीटीआर में बोडोफा सांस्कृतिक परिसर में शुरू हुई। अपने उद्घाटन भाषण में, बीटीसी के प्रधान सचिव आकाश दीप ने प्रतिभागियों को पर्यावरण की सुरक्षा और भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों के संरक्षण के लिए न्यूनतम जीवन विकल्प अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पर्यावरण क्षरण किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित नहीं है और पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी का आह्वान किया। बीटीसी ईएम गौतम दास ने बीटीआर सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला, विशेष रूप से बीटीसी प्रमुख प्रमोद बोडो के नेतृत्व में ग्रीन बोर्डोलैंड मिशन के माध्यम से। उन्होंने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाना, संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देना और स्थानीय संसाधन प्रबंधन को वकालत करना है, जिसमें महिलाओं, युवाओं और छात्रों की भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कार्यक्रम में संयुक्त सचिव रैकिटम बोरगोहेन, ग्रीन बोर्डोलैंड मिशन के मिशन निदेशक मनोरंजन दास सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया, साथ ही इस क्षेत्र के विशेषज्ञों में असम कृषि विश्वविद्यालय में अनुसंधान के एसोसिएट निदेशक डॉ. मृगाल सैकिया, टीआईईईडीआई के संस्थापक माली उत्तव प्रधान, एएयू चावल अनुसंधान संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. रंजन दास आदि शामिल थे।

बीटीआर में समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है : डॉ. स्वर्गीयारी



विकसित भारत समाचार कोकराझाड़। बीटीसी, सीईएम प्रमोद बोडो के नेतृत्व में, बीटीआर में समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास कर रहा है, जिसमें बुनियादी ढांचे और आवश्यक सुविधाओं पर ध्यान

केंद्रित किया जा रहा है जो समुदाय के जीवन की समग्र गुणवत्ता में योगदान करते हैं, बीटीसी ईएम (आईपीआर और पीएचई आदि) डॉ. नितुल स्वर्गीयारी ने पिछले रविवार को उदालगुड़ी जिले में कई योजनाओं का उद्घाटन करते हुए

कहा। रमेश दैमारी हाउस से जमुगुड़ी बाथी मंदिर तक सीसी ब्लॉक रोड के उद्घाटन के दौरान, डॉ. स्वर्गीयारी ने कहा कि 18.95 लाख रुपए की लागत से निर्मित यह सड़क हमारे क्षेत्र में कनेक्टिविटी को काफी बढ़ाएगी और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को और अधिक कुशल बनाकर लोगों को सशक्त बनाएगी। यह परियोजना, मजबूत विकास खंड में गैलाबिल वीसीडीसी का हिस्सा है, जो वर्तमान में पूरे बीटीआर में शुरू की जा रही कई विकास योजनाओं में से एक है। इससे पहले, डॉ. स्वर्गीयारी ने रोता निर्वाचन क्षेत्र में स्थित सैकियाचुबरी प्राइमरी के पीटीपीटा हाई स्कूल में सामुदायिक शौचालय का भी उद्घाटन किया। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमारे स्कूलों के लिए उचित स्वच्छता और सफाई बहुत जरूरी है, क्योंकि वे एक स्वस्थ समाज की नींव हैं और इसलिए हम समुदाय के लिए एक उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए इस दिशा में काम कर रहे हैं।

चल रही प्रायोजित परियोजना पर समीक्षा बैठक के लिए एसआईटी के उपाध्यक्ष ने किया रंगिया कॉलेज का दौरा

गुवाहाटी। राज्य नवाचार एवं परिवर्तन आयोग (एसआईटी), असम के माननीय उपाध्यक्ष नारायण चंद्र बोरकाटको ने 30 सितंबर, 2024 को रंगिया कॉलेज, रंगिया का दौरा किया, ताकि एसआईटी द्वारा प्रायोजित चल रही परियोजना के लिए वनस्पति उद्यान का सर्वेक्षण किया जा सके, जिसका शीर्षक है - *ऑषधीय पौधों की बाहरी खेती और दुर्लभ एवं लुप्तप्राय पौधों का संरक्षण-हर्बल गार्डन की स्थापना*। एसआईटी के सहयोग से, रंगिया कॉलेज, रंगिया का उद्देश्य ऑषधीय पौधों के बारे में आम लोगों में जागरूकता पैदा करना है, हर्बल गार्डन की स्थापना करना और दुर्लभ या संकटग्रस्त पौधों की खेती को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर शामिल करना ताकि देश की आने वाली पीढ़ी को वनों की कटाई, औद्योगीकरण से होने वाले पर्यावरणीय क्षरण के बारे में पता चल सके। परियोजना का उद्देश्य हर्बल गार्डन की स्थापना करके आयुज के लिए आम लोगों को जागरूक करना, किसानों और शोधकर्ताओं आदि को पेटेंट अधिकार के लिए प्रोत्साहित करना, संबंधित विषय के विभिन्न संस्थानों आदि को शामिल करके अनुसंधान



और विकास क्षेत्र में तेजी लाना और कॉलेज परिसर में हर्बल गार्डन स्थापित करना है। उल्लेखनीय है कि इस परियोजना को शुरू करने के लिए 5 मई, 2022 को एसआईटी, असम सरकार और रंगिया कॉलेज, रंगिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। कॉलेज परिसर का दौरा करने पर माननीय एसआईटी के उपाध्यक्ष ने एसएम के विभिन्न क्षेत्रों से एकत्र किए गए दुर्लभ और लुप्तप्राय पौधों के बारे में जानकारी ली। कॉलेज परिसर के उद्यान में

पहले से लगाए गए कुछ आरईटी पौधे जैसे- होलॉग (राज्य वृक्ष), सिया नाहोर (स्थानिक), रुद्राक्ष का पौधा, अगूर (सांची), धुना, होलोख, सभी मसाले, राउबोल्फिया सर्पेटना, कालमेष, नींबू घास और सिट्रोनेला, बोंच, लाल और सफेद चंदन और कई अन्य महत्वपूर्ण फल, ऑषधीय और मसाले के पौधे। वे एसआईटी परियोजना के तहत पड़ोसी क्षेत्रों में किए गए विस्तारित कार्यों के बारे में जानकर बहुत संतुष्ट थे। उन्होंने डॉ. रंजीता तामुली

तालुकदार, प्रधान अन्वेषक और डॉ. स्निग्धा सरकार, रंगिया कॉलेज की सदस्य और पूरी टीम को उनके समर्पित कार्यों के लिए प्रशंसा की और उनका उत्साहवर्धन किया। उद्यान का दौरा करने के बाद, रंगिया कॉलेज के शिक्षक इकाई के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जहां रंगिया कॉलेज के प्राचार्य डॉ. ब्रजेंद्र सैकिया ने अपना स्वागत भाषण दिया। सभी को संबोधित करते हुए, माननीय उपाध्यक्ष नारायण चंद्र बोरकाटको, एसआईटी ने परियोजना के भविष्य के विकास के लिए उपयोगी सुझावों के साथ परियोजना के बारे में अपनी प्रेरक टिप्पणियाँ दीं। उन्हें उम्मीद है कि परियोजना के माध्यम से, लोहा हर्बल पौधों की उपयोगिता जान सकेंगे और आम लोगों को आयुज बनाने और शोध कार्यों के लिए हर्बल उद्यान स्थापित करने के लिए जागरूक कर सकेंगे। समीक्षा बैठक में द्विजेंद्र एक, हजारी, अलकेश काकती सहित एसआईटी और रंगिया कॉलेज शिक्षक इकाई के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। बैठक का संचालन दीपक कलिता, सचिव, शिक्षक इकाई, रंगिया कॉलेज ने धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया।

हृदय दिवस पर असम राइफल्स का चिकित्सा शिविर आयोजित



विश्वनाथ (विभास)। असम राइफल्स ने असम के शोणितपुर में विश्व हृदय दिवस के उपलक्ष्य में एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। असम राइफल्स की मेडिकल टीम ने हृदय रोगों और उनकी रोकथाम पर

ध्यान केंद्रित किया। कार्यक्रम की शुरुआत हृदय स्वास्थ्य पर एक जानकारीपूर्ण व्याख्यान के साथ हुई, जिसमें हृदय रोग के जोखिम को कम करने के लिए शीघ्र पता लगाने और निवारक उपायों के महत्व पर जोर दिया

गया। व्याख्यान के बाद उपस्थित लोगों की गहन चिकित्सा जांच की गई, जिससे यह सुनिश्चित किया गया कि पेशेवरों द्वारा उनकी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का समाधान किया गया है। शिविर का समापन आवश्यक औषधियों के वितरण के साथ हुआ। शिविर से गांवों के कुल 165 लोग लाभान्वित हुए। इस पहल ने सामुदायिक स्वास्थ्य को बढ़ाने और स्थानीय आबादी को भलाई पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले हृदय रोगों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए असम राइफल्स की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। शिविर में हृदय रोग और इसकी रोकथाम के बारे में जागरूकता पर ध्यान केंद्रित किया गया। शिविर से 165 ग्रामीणों को चिकित्सा जांच और दवाओं के वितरण से लाभ हुआ।

भारी मात्रा में ड्रग्स समेत दो तस्कर गिरफ्तार

नगांव (हिंस)। नगांव जिले के रोहा के सरगांव इलाके से पुलिस ने भारी मात्रा में ड्रग्स समेत दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए अभियान के दौरान प्लास्टिक के तीन साबुनदानों में छुपाकर रखे गए हेरोइन समेत दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान रसीदुल हक और सफीकुल इस्लाम के रूप में की गई है। गिरफ्तार दोनों आरोपी बरामद की गई हेरोइन सिलवर से ट्रेन के जरिए लेकर आए थे। ट्रेन से उतरने के बाद दोनों एक ऑटो रिक्शा में सवार होकर नगांव की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार दोनों तस्करों से सघन पूछताछ कर रही है।

रोटरी क्लब ऑफ गुवाहाटी वेस्ट ने विश्व हृदय दिवस मनाया

गुवाहाटी। हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में, रोटरी क्लब ऑफ गुवाहाटी वेस्ट ने ज्योतिकुची सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से विश्व हृदय दिवस के अवसर पर एक निःशुल्क हृदय जांच शिविर का आयोजन किया। यह कार्यक्रम मालती सेन मेमोरियल हॉस्पिटल में आयोजित किया गया, जिसका समर्थन कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया-नॉर्थ ईस्ट और कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ असम द्वारा किया गया। भारत स्वास्थ्य संघ ने इस शिविर के आयोजन में सहायता की। प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञों में रोटरीयन डॉ.



ऋतुपर्णा बरुवा, डॉ. (श्रीमती) मिनाक्षी डेका और डॉ. एलआर प्रधान शामिल थे, जिन्होंने इस शिविर में महत्वपूर्ण चिकित्सा परामर्श प्रदान किया। ग्लेनमार्क फार्मा (गुवाहाटी डिविजन) ने निःशुल्क ईसीजी, रक्तचाप और

रक्त शर्करा जांच के साथ-साथ मुफ्त दवाओं का वितरण किया। इस शिविर में कुल 62 रोगियों ने भाग लिया और आवश्यक स्वास्थ्य जांच और चिकित्सा सलाह प्राप्त की इस कार्यक्रम में रोटरी क्लब के प्रमुख सदस्य उपस्थित थे।

No.FA/TR/Tender/2024-25/1043		NOTICE INVITING TENDER		Date 23/09/2024
Sealed tenders are invited affixing a non-refundable Court Fee Stamp of Rs. 8.25 (Rupees Eight paise Twenty Five) only are invited from the registered Contractors/Supplier/Dealer/Firm along with self-attested copy of up to date Contractor's Registration/Firm Registration/Trade license, GST Registration, Income Tax Return (last 3 years), Annual Turnover (last 3 years), Bank Solvency etc. along with the Tender which will be received by the undersigned through speed post/courier/registered post/ tender box till 15.10.2024 up to 2 PM (I.S.T.) and will be opened on 15.10.2024 at 2:30 P.M. (I.S.T.) in the O/o the Field Director, Manas Tiger Reserve, Barpeta Road for the following items as stated below:				
Sl. No	Particulars	Specification	Rate (In Rs.)	
1	Camera Trap.	<ul style="list-style-type: none"> Resolution : >=3 MP Flash Technology: Ability to interchange Flash modules between IR & White flash. Time lapse: Yes. Trigger speed:<=0.25 sec. Recovery Time: <= 45 sec. Flash Illumination Range: >=35 feet. Power Supply: AA or D type battery (Alkaline battery) Photo stamp: Date, Time, Camera Id Memory SD card should support 32 GB Detection: Centre weighted. Protective cover/Housing features: All weather Resistant. Warranty: Minimum 1 year. 	The unit rate to be quoted includes GST & Transportation charges mentioning brand and warranty period.	
2	Laser Range Finder	<ul style="list-style-type: none"> Range (Distance): 6-600m Power: 6x Accuracy: 1m Objective: 21mm Lens Coating: Multi Anti-Reflective Angle Range: 90° Field of View: 140m @1000m Wide Angle Optical System: 8° Eye Relief: 18mm Battery: CR2 - 3V Operating Temperature: -10°C to 40°C Waterproof Rating: IPx5 Length: 97mm Weight: 170g Warranty: Minimum 1 year. 		
3	Compass	<ul style="list-style-type: none"> Accuracy: 0.5° Graduation interval :1° Scale : Azimuth 360°, Reversed 360° Adjustable diopter with liquid filled capsule Plastic housing, Floating, Lanyard Warranty: Minimum 2 year. 		
4	Solar Battery for APC.	Compatible devices : Solar Battery Battery capacity: 60 AH. Battery voltage: 12 Volts Warranty: Replacement minimum 3 years.	The unit rate to be quoted includes GST & Transportation charges mentioning the brand. Rate may also be quoted for buy- back of old batteries	
In the event of any unusual occurrence due to strike, bandh, holiday etc. the same will be received and opened on the next working day at the same place and same time.				
IPR(BTC)/C/2024-25/626				
Sd/ Field Director, Manas Tiger Reserve				

प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन सरकार, जो कहा वो पूरा किया और पूरा करेंगे : मदन राठौड़

जयपुर (हिस)। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कैबिनेट बैठक में किए गए फैसलों को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह भाजपा की डबल इंजन सरकार है, जो कहा है, वह पूरा किया है और आगे भी पूरा करेंगे। प्रदेश की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने बेरोजगार युवकों को समय पर नौकरी नहीं दी थी, जबकि सरकारी विभागों में अनेक पद रिक्त थे। भाजपा सरकार ने बेरोजगारों के हितों को ध्यान में रखते हुए विभागों में छानबीन की तो कई पद रिक्त पाए गए। ऐसे में सरकार ने कैबिनेट में तत्काल निर्णय करते हुए एक साथ 90 हजार युवकों को सरकारी नौकरी देने का साहसपूर्ण कार्य किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि सरकारी विभागों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 60 हजार रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के साथ शैक्षणिक योग्यता 10वीं करने का भी फैसला किया है। भर्ती परीक्षा में साक्षात्कार के साथ लिखित परीक्षा करवाने से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता



आएगी। वहीं शैक्षणिक योग्यता 10वीं करने से कार्य में कुशलता भी देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने बेरोजगारों के साथ मंत्रालयिक कर्मचारियों के हितों का भी ध्यान रखा और पे लेवल एल 15 से बढ़ाकर एल 16 करने का अनुमोदन कर दिया। वहीं पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों को अन्य विभागों के समान एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए सेवा नियमों

में संशोधन को भी मंजूरी देकर उनके हितों का ध्यान रखा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कुप्रबंधन के चलते प्रदेश में बिजली संकट गहराया, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस कुप्रबंधन को भी बेहतरीन तरीके से मैनेज किया और प्रदेश को बिजली के क्षेत्र में सरप्लस करने की दिशा में कार्य शुरू कर दिया। सरकार ने कैबिनेट बैठक में 5700 मेगावाट ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 10 हजार 418 हेक्टेयर भूमि आवंटन की स्वीकृति देकर अपनी जवाब देयता साबित कर दी। बिजली उत्पादन के साथ वितरण व्यवस्था को भी सुधारे की दिशा में कार्य किया, दौसा में 38 हेक्टेयर क्षेत्र में 765/400 केवी उपकेंद्र बनाने की घोषणा इसका उदाहरण है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश के विकास के लिए उद्योगों-धंधे बढ़ाने की दिशा में भी कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए राईजिंग राजस्थान समिट पर कार्य शुरू

कर दिया। इससे प्रदेश के सामाजिक स्तर के साथ आर्थिक स्तर बढ़ेगा। कैबिनेट बैठक में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 को मंजूरी दी गई। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने 10 माह में भाजपा के घोषणा पत्र की 50 फीसदी वादों को पूरा करने का ऐतिहासिक कार्य किया है। इनमें पीकेसी-ईआरसीपी योजना, यमुना जल समझौता, पेपरलीक में एसआईटी का गठन, एंटी गैंगस्टर टॉक्स फोर्स का गठन, पीएम उज्वला योजना के साथ चयनित बीपीएल परिवार और खाद्य सुरक्षा में चयनित परिवारों को 450 में रसोई गैस सिलेंडर देना, 3 लाख लघुवित्त दीदी बनाने के साथ, मां वाउचर योजना, 10152 छात्राओं को स्कूटियां वितरित करने के साथ-साथ स्वतंत्र पत्रकार के अधिस्वीकरण हेतु न्यूनतम आयु 50 वर्ष से घटा कर 45 वर्ष किया गया है तथा न्यूनतम पत्रकारिता का अनुभव 25 वर्ष से घटा कर 15 वर्ष किया गया है ऐसे अनेक जनऐतिहासिक कार्य पूरा करने का कार्य किया है।

सीएम सैनी बोले, राहुल गांधी पर्यटक की तरह हरियाणा में घूमने आए हैं, चले जाएंगे

जौड़ (हिस)। सीएम नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता प्रचार की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। आज से राहुल गांधी हरियाणा में आए हैं लेकिन वो दूरिस्ट की तरह आए हैं और तीन दिन घूमकर चले जाएंगे। हमने हरियाणा में इतना विकास किया है कि घूमने की भी अच्छी जगह है। सीएम ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को कहा कि उनके 56 दिन का कार्यकाल हुड्डा के 10 साल पर भारी पड़ा है। सीएम नायब सिंह सैनी सोमवार को सैनी रामलीला ग्राउंड में भाजपा उम्मीदवार डॉ. कृष्ण मिश्रा के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हुड्डा साहब अभी तो ये मात्र टूलर है। असली पिछर तो आठ अक्टूबर के बाद शुरू होगा। राहुल बाबा आज हरियाणा में आए हैं। कांग्रेस के बड़े नेता यहां प्रचार की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। उनका हौंसला गिर चुका है। वह राहुल गांधी को बताना चाहते हैं कि यहां दूरिस्ट के लिए अच्छी



जगह हैं। अगर राहुल बाबा आ ही गए हैं तो कुछ सवालियों के जवाब भी देंगे जो उन्होंने हुड्डा और कांग्रेस से चार माह पहले पूछे थे। वह पूछना चाहते हैं कि राहुल आखिर क्यों दलितों का आरक्षण खत्म करने के लिए अमेरिका में बैठ कर वकालत करते हैं। हुड्डा कहते हैं कि यह तो माह घोषणाओं वाला सीएम है लेकिन वह बता देना चाहते हैं कि जो घोषणाएं उन्होंने की हैं, वह पथर पर लकीर हैं। उन्होंने 56 दिनों में 126 मजबूत फैसले लिए हैं। ये 56 दिन भूपेंद्र हुड्डा के 10 साल के

शासनकाल पर भारी पड़ रहे हैं। इससे कांग्रेस का पेट खराब हो रहा है। आठ अक्टूबर के बाद प्रदेश की बहनों को 2100 रुपए प्रतिमाह देने का काम उनकी सरकार करेगी। तीज पर जो 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का संकल्प लिया थाएं वह एक अगास्त से लागू कर दिया था। एक लाख 80 हजार रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवार को छत पर दो अकिलोवाट तक का सोलर पैनल लगाया जाएगा। जिसके बाद बिजली बिल जौरो हो जाएगा। हर जिले में ओलिंपिक नर्सरी खोली जाएगी।

संघ की 91 शाखाओं का अजमेर में एक ही स्थान पर हुआ संगम

अजमेर (हिस)। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अजमेर महानगर की ओर से रविवार को स्थानीय फूस की कोठी पर शाखा संगम 2024 आयोजित किया गया। जिसमें अजमेर महानगर में नियमित चलने वाली 150 शाखाओं में से चयनित 91 शाखाओं का एक ही दिन, एक ही समय, व एक ही स्थान पर शाखा संगम कार्यक्रम रखा गया। सभी शाखाओं द्वारा होने वाले नियमित शारीरिक कार्यक्रमों तथा व्यायाम, मितकाल, सूर्य नमस्कार, दंड प्रयोग, खेल और बौद्धिक कार्यक्रम जैसे सुभाषित, अमृत वचन, गीत, इत्यादि किए गए। निर्धारित समय सारिणी की पालना करते हुए शाखाएं लगी। शाखा संगम कार्यक्रम की विशेष बात यह रही कि इसमें भाग लेने वाली शाखाओं के लिए पूरे मैदान को अलग अलग ब्लॉक में बांट कर सभी को निश्चित स्थान आवंटित किए गए। सभी शाखाओं द्वारा संघ स्थान व ध्वज मंडल की रंगोली बनाकर रंग एवं पुष्प से साज सज्जा भी की गई थी। शाखा में विभाग प्रचारक शिखर ने स्वयं सेवकों को संबोधित किया। उन्होंने एक घंटे की शाखा का महत्व बताया तथा साथ ही पंच-परिवर्तन यथा पर्यावरण, सामाजिक समरसता, नागरिक कर्तव्य, स्वदेशी व कुटुंब प्रबंधन जैसे विषयों पर भी प्रकाश डाला।

योगी-मोदी राज में गोकशी बर्दाशत नहीं, होगी कठोर कार्रवाई : पत्ताकर मिश्र

मीरजापुर (हिस)। शहर कोतवाली क्षेत्र के रामबाग स्थित कुरेश नगर में रविवार को हुई गोकशी की घटना को लेकर नगर विधायक पत्ताकर मिश्र ने चिंता व्यक्त की। घटना की जानकारी मिलने पर उन्होंने डीआईजी और एम्पी से बातचीत की। इसके बाद एम्पी ने मौके पर पहुंचकर सचन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान एक डी प्रीजर में संदिग्ध बीफ पाया गया, जिसका सैंपल लेते हुए पुलिस ने कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। नगर विधायक ने कहा कि विधायक गोकशी का अपराध करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इसमें संलिप्त पाया जाएगा उसे कठोर सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा।

पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा को बर्बाद किया : सुरेंद्र राजपूत

गुरुग्राम (हिस)। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहा है। इस चुनाव में हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर कांग्रेस के ब्रद एम्बेसडर हैं। वे जिस सभा में कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं, वहां हमारे 1000 वोट बढ़ा देते हैं। यह बात उन्होंने सोमवार को यहां पत्रकार वार्ता में कही। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने पत्रकार वार्ता की शुरुआत हरियाणा में बढ़ते नशे से की। उन्होंने सभी से यह आग्रह किया कि हरियाणा को नरसल और फसल को बचा लो। क्योंकि नरसल तो नशीली वस्तु चिट्ठे ने खराब कर दी है और फसलों पर सरकार की मार पड़ रही है। इसके लिए अब हम सबको जागृत लाकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि इस विषय पर रोज अभियान चलाए जाने चाहिए। इसके बाद राजनीतिक चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा को बर्बाद करने का काम किया है। किसानों को महंगाई ने मार दिया। बच्चों को नशे ने मार दिया। अब समय आ गया है रक्त रहित बदला लेने का। यानी वोट की चोट से भाजपा सरकार को अब हरियाणा की जनता चलता करेगी। उन्होंने किसानों को लेकर कहा कि बाईंडर पर किसानों ने रास्ता नहीं रोक रखा। वे खुद वहां जाकर आए हैं। किसानों से मिलकर आए हैं। रास्ता तो सरकार ने रोक रखा है। किसानों की मांग को सरकार पूरा नहीं कर रही। किसान शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे हैं। किसानों को पराली जलाने का शौक नहीं है। वे चाहते हैं कि पराली का कानून बदला जाए और पराली को खत्म करने के लिए सरकार कोई ठोस विकल्प लेकर आए। सभी किसानों पर दंड केंस वापस लिए जाएं। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर बात में झूठ बोलती है। जीना-खाना भाजपा ने महंगा कर दिया है। बीजेपी के खिलाफ 5 अक्टूबर को हरियाणा की जनता खुलकर वोट करेगी। इसके साथ ही कांग्रेस की सरकार बनेगी। बिना सीएम चेहरा चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सीएम चेहे पर चुनाव लड़ना या बिना चेहे के चुनाव लड़ने में कोई बुराई नहीं है। हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है। भाजपा ने भी बिना चेहे के कई राज्यों में चुनाव लड़े हैं। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में कांग्रेस की 55 से अधिक सीटें आएंगी। क्योंकि यह चुनाव जनता लड़ रही है। भाजपा द्वारा अनाधिक नाम पर कांग्रेस को घेरने के सवाल पर सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि जो परिवार वाले नहीं हैं, वे दामाद की इज्जत, कामत क्या समझे।

सिर्फ चार महीने की उम्र में हुई शादी, 20 साल तक झेला बाल विवाह का दंश

जोधपुर (हिस)। महज चार महीने की उम्र में बाल विवाह की बेडियों में जकड़ी अनिता को करीब बीस साल तक दंश झेलने के बाद आखिर सारथी ट्रस्ट की मैं ने जिंग ट्रस्टी एवं पुनर्वासि मनोवैज्ञानिक डॉ. कृति भारती के संबल से बाल विवाह से मुक्ति मिल गई। जोधपुर के पारिवारिक न्यायालय संख्या 2 के न्यायाधीश वरुण तलवार ने अनिता के बाल विवाह निरस्त का ऐतिहासिक फैसला सुनाया। वहीं सारथी ट्रस्ट की डॉ. कृति भारती के प्रयासों से संभवतः पहली बार बाल विवाह निरस्त के प्रकरण में पारिवारिक न्यायालय ने तथाकथित पति से बालिका वधु को वाद खर्च भी दिलावने की अनूठी नवीर पेश कर फैसला सुनाया। जोधपुर जिले के



ग्रामीण क्षेत्र की निवासी किसान परिवार की बेटे 21 वर्षीय अनिता का महज 4 महीने की उम्र में बाल विवाह हुआ था जिसके बाद से लगातार बाल विवाह का दंश झेलती रही। लगातार ससुराल पक्ष

उसका गौना करवा कर ससुराल भेजने का दबाव बनाए हुए था। वहीं कई तरह से प्रत्यक्ष और परोक्ष धमकियां मिल रही थी। इस बीच अनिता को जोधपुर के सारथी ट्रस्ट की मैंनेजिंग ट्रस्टी एवं पुनर्वासि मनोवैज्ञानिक डॉ. कृति भारती की बाल विवाह निरस्त की मुहिम के बारे में जानकारी मिली। अनिता ने डॉ. कृति से मुलाकात कर खुद की पीड़ा बयानों को जिसके बाद डॉ. कृति ने अनिता के बाल विवाह निरस्त का वाद जोधपुर के पारिवारिक न्यायालय संख्या 2 में दायर किया। डॉ. कृति भारती ने पारिवारिक न्यायालय में अनिता की ओर से पैरवी कर बाल विवाह और आयु संबंधी तथ्यों से अवगत करवाया जिसके बाद पारिवारिक न्यायालय संख्या दो के न्यायाधीश वरुण

तलवार ने अनिता के महज 4 महीने की उम्र में 20 साल पहले हुए बाल विवाह को निरस्त करने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इसके साथ ही सारथी ट्रस्ट की डॉ. कृति के प्रयासों पर बालिका वधु को न्यायालय ने तथाकथित पति से वाद खर्च दिलवाने का फैसला देकर नई नज्दीर पेश कर दी। न्यायाधीश तलवार ने बाल विवाह के खिलाफ समाज को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि बाल विवाह केवल कुरीति ही नहीं एक अपराध भी है। इससे बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है। बालिका या बालिका बाल विवाह को निरंतर नहीं रखना चाहते हैं तो उनको बाल विवाह निरस्त का अधिकार है। बाल विवाह की कुरीति को मिटाने के लिए समाज के स्तर पर महती प्रयासों की जरूरत है।

रोम की संस्कृति में पले-बढ़े एक्सिडेंटल हिंदू नहीं बर्दाशत कर पा रहे राम मंदिर : योगी

चंडीगढ़ (हिस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम व रोम की संस्कृति में बड़ा अंतर है। पांच सौ वर्ष का इंतजार समाप्त हुआ और 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से भगवान श्रीरामलला अयोध्या धाम में विराजमान हो गए। इस पर चंडीगढ़ आंसू बहा रही बदनसीब कांग्रेस को इससे भी नफरत है। राम की संस्कृति में पला-बढ़ा व्यक्ति प्रभु श्रीराम की मर्यादा का पालन करते हुए 500 वर्ष तक निरंतर लड़ता रहा। रोम की संस्कृति में पले-बढ़े बदनसीब एक्सिडेंटल हिंदू इसे बर्दाशत नहीं कर पा रहे हैं। एक्सिडेंटल हिंदू देश और जनता के प्रति कभी ईमानदार नहीं हो सकते। राम भारत के प्रतीक हैं। जो राम का नहीं, वो हमारे किसी काम का नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को हरियाणा में चार जनसभा की। उन्होंने बवानी खेड़ा से कपूर वाल्मीकि, हासी से विनोद भयाना, नारनोद से केप्टन अभिनव, सफीदों से रामकुमार गौतम व पंचकुला से ज्ञानचंद्र गुप्ता, कालका से शक्तिरानी शर्मा को जिताने की अपील की। राहुल गांधी के बयान पर मुख्यमंत्री योगी ने



कहा कि जो लोग कहते हैं कि अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन पर नाच गाना चल रहा था। दरअसल उनका खानदान ही जिंदगी भर नाच गाना करता रहा। हिंदुओं का अपमान, सनान संस्कृति को कोसना और भारत के बाहर संवैधानिक संस्थाओं को खड़ा करके कांग्रेसी अपनी योग्यता पर प्रशंनिह लगाते हैं। वर्ष 1526 में राम मंदिर तोड़कर गुलामी का ढांचा खड़ा कर दिया गया था। मुगल-

अंग्रेज नहीं चाहते थे कि हिंदू धर्म-संस्कृति का नामोनिशान रहे, लेकिन आजाद भारत की पहली सरकार जिन बदनसीबों के हाथ नाच गाना करता रहा। हिंदुओं का अपमान, सनान संस्कृति को कोसना और भारत के बाहर संवैधानिक संस्थाओं को खड़ा करके कांग्रेसी अपनी योग्यता पर प्रशंनिह लगाते हैं। वर्ष 1526 में राम मंदिर तोड़कर गुलामी का ढांचा खड़ा कर दिया गया था। मुगल-

योगी ने कहा कि यहां के लोग जानते हैं कि कांग्रेस वाले आएंगे तो देश के साथ गद्दारी करेंगे। विकास के नाम पर केवल अपने घर को भरते रहे। कांग्रेसियों ने गरीब कल्याण का भी कोई कार्य नहीं किया, जबकि हरियाणा में डबल इंजन सरकार के कार्यकाल में खूब विकास हुआ। कांग्रेसी कहते थे कि देश के संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमान का है, जबकि मोदी जी कहते हैं कि देश के संसाधन पर पहला हक गरीब, कमजोर-वंचित, दलितों, पिछड़ों का है। कोरोना में भाजपा का कार्यकर्ता पीएम मोदी व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आह्वान पर सेवा ही संगठन मंत्र के साथ कार्य कर रहा था, लेकिन उस वक्त राहुल गांधी कहां थे। संकट के समय उन्हें भारत नहीं, इटली में नानी याद आती हैं। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में साढ़े सात साल से दंगाई जेल में था जहन्नुम चले गए। यूपी में अब नो कर्फ्यू, नो दंगा है, क्योंकि वहां सब चंगा है। कांग्रेस ने यूपी के दुर्गत माफिया को शरण दिया था। उसके साथ उनकी व्यावहारिक पार्टनरशिप थी। खनन, गुप्त, वन, भूमाफिया कांग्रेस के शागिर्द थे, इसलिए कांग्रेस को सत्ता से दूर रखना चाहिए।


गर्ल्स बटालियन ने कचड़े से तैयार वस्तुओं की लगाई प्रदर्शनी

सहरसा (हिस)। 4 बिहार गर्ल्स बटालियन द्वारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही यत्र तत्र सर्वत्र सड़क पर फेंके जा रहे कचड़े से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं तैयार की जा रही हैं। उसे बढावा देने के लिए वेस्ट टू आर्ट एक्सपोजिशन कार्यक्रम के अंतर्गत रमेश झा महिला महाविद्यालय, रूपवती कन्या उच्च मध्य विद्यालय, जिला गर्ल्स स्कूल के संयुक्त तत्वधान में एनसीसी कैडेट्स द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि किस प्रकार हम घर की वेस्ट चीजों का इस्तेमाल करके अपने आप पास को सजा सकते हैं। साथ ही वेस्ट चीजों को रीसाइकल करके प्रकृति को भी कचड़ा मुक्त कर सकते हैं। इस



कार्यक्रम का सफल आयोजन 4 बिहार गर्ल्स बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रवि शंकर, रमेश झा महिला महाविद्यालय की प्राचार्या प्रो उषा सिन्हा, एनसीसी केयर टेकर डॉ. पूजा कुमारी, शिपत खानम, सुबेदार संतोष प्रधान, सुबेदार श्याम

शर्मा, जीसीआई दीक्षा, हवलदार विश्वजीत के सफल निदेशन में हुआ। इस अवसर पर कैडेट्स में मुख्य रूप से नेहा, रानी, अनुपम, मोनिका, खुशी, प्रियांशी, प्रीति, खुशबू, लाडली, जिंया, कल्पना शिवानी इत्यादि कैडेट्स मौजूद थी।



सीबीडीटी ने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय-सीमा 7 अक्टूबर तक बढ़ाई

नई दिल्ली। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ा दी है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की ओर से जारी अधिसूचना में विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर सात अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है।

ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 7 अक्टूबर किया

सीबीडीटी की ओर से रविवार को जारी एक अधिसूचना के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के लिए विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख बढ़ा दी गई है। परिपत्र के अनुसार इन

रिपोर्टों को दाखिल करने की समय-सीमा 30 सितंबर से बढ़ाकर 7 अक्टूबर, 2024 कर दी गई है। आयकर विभाग ने जारी बयान में कहा है कि आयकर अधिनियम के तहत विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक दाखिल करने में करदाताओं के समझ आ रही कठिनाइयों को देखते हुए सीबीडीटी ने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख बढ़ाई है। आयकर विभाग ने करदाताओं को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय-सीमा का अधिकतम लाभ उठाएं और नई नियत तारीख 7 अक्टूबर, 2024 तक अपनी ऑडिट रिपोर्ट को जमा करना सुनिश्चित करें।

न्यूज़ ब्रीफ

अशनीर ग़ोवर भारतपे से नहीं जुड़ेगे : कंपनी



नई दिल्ली। वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी भारतपे ने सोमवार को कहा कि उसके पूर्व सह-संस्थापक अशनीर ग़ोवर किसी भी रूप में कंपनी से नहीं जुड़ेगे और न ही उनके पास कंपनी के कोई शेयर होंगे। ग़ोवर को मार्च 2022 में कंपनी के निदेशक मंडल ने भारतपे और उनके प्रबंध निदेशक के पद से हटा दिया गया था। तब से दोनों पक्ष लगातार कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। भारतपे ने बयान में कहा कि भारतपे ने अपने पूर्व सह-संस्थापक अशनीर ग़ोवर के साथ एक समझौता किया है। समझौते के तहत ग़ोवर किसी भी क्षमता में भारतपे से नहीं जुड़ेगे और न ही उनके पास कंपनी के कोई शेयर होंगे। समझौते के बाद, ग़ोवर के कुछ शेयर कंपनी के लाभ के लिए रिसिलिएंट ग्रोथ ट्रस्ट को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे और उनके प्रबंध निदेशक के पद से हटाए जाने के परिणामस्वरूप न्याय किया जाएगा। बयान में कहा गया कि दोनों पक्षों ने दायर मामलों को आगे न बढ़ाने का फैसला किया है। हम ग़ोवर को शुभकामनाएं देते हैं।

जियो का रिचार्ज प्लान, रोजाना 3 रुपए में अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा!



नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े टेलीकॉम कंपनी जियो ने हाल ही में अपने कुछ प्लान में बढ़ोतरी कर यूजर्स को निराश किया था। लेकिन अब ऐसे रिचार्ज प्लान लेकर आया है जिसमें आपका प्रति दिन मात्र 3 रुपए खर्च होगा। जियो ने अपने यूजर्स के लिए 75 रुपए वाला प्लान लेकर आया है। इस प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग, 50 एसएमएस और डेली 100 एमबी डेटा मिलता है। इसके साथ 200 एमबी अतिरिक्त डेटा और कुल 2.5 जीबी डेटा का लाभ मिलेगा। इस प्लान की वैधता 23 दिनों की होती है। यानी इस प्लान में आपको रोजाना 3 रुपए खर्च आएगा। बता दें कि इस प्लान का लाभ सिर्फ जियो फोन यूजर्स ही उठा सकते हैं। दरअसल, कंपनी की ओर से अपने कई प्लान सिर्फ जियो फोन यूजर्स के लिए उपलब्ध किए जाते हैं, जिनमें से एक ये है।

एक अक्टूबर को होगा अनिल अंबानी की किस्मत का फैसला

मुंबई। कभी कर्ज की वजह से चर्चा में रहने वाले कारोबारी अनिल अंबानी के दिन अब फिरने लगे हैं। बताया जा रहा है कि अनिल अंबानी की दो कंपनियों रिलायंस पावर और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होगी। इस बैठक में कंपनी से जुड़े कई फैसले लिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में बोर्ड लॉन्ग टर्म तक फाइनेंशियल रिसेसिंग जुटाने पर विचार करेगा और उन्हें मंजूरी देगा। ऐसा होता है तो यह कंपनी के लिए अच्छा कदम होगा। बता दें कि 19 सितंबर को हुई बोर्ड मीटिंग के बाद कंपनी अब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट से पूंजी जुटाने पर फोकस कर रही है। बताया जा रहा है कंपनी बैठक में फंड जुटाने के लिए अलग-अलग रणनीति अपना सकती है। इसके लिए इंडिटी शेयरों, इंडिटी-लिंक्ड सिविलिटीज या इंडिटी शेयरों में परिवर्तनीय वारंट के माध्यम से फंड जुटा सकती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के माध्यम से 3,014 करोड़ रुपये जुटाने को मंजूरी दे दी है। रिलायंस पावर ने स्टॉक एक्सचेंज में अपनी रेगुलेटरी फाइलिंग में 3872.04 करोड़ रुपये के बकाया कर्ज को चुकाने की जानकारी दी थी। अनिल अंबानी की दोनों कंपनियों रिलायंस पावर और रिलायंस इंडिका के शेयर तेजी से भाग रहे हैं। रिलायंस पावर ने पिछले एक महीने में करीब 52 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं रिलायंस इंडिका भी रिटर्न के मामले में पीछे नहीं रही है। इस कंपनी ने एक महीने में करीब 55 फीसदी रिटर्न दिया है।

नई दिल्ली। ग्लोबल मार्केट से सोमवार को मिले-जुले संकेत मिल रहे हैं। पिछले सत्र के दौरान अमेरिकी बाजार गिरावट के साथ बंद हुए थे। डाउ जॉन्स विन्डोस भी कमजोरी के साथ कारोबार करता नजर आ रहा है। इसके विपरीत यूरोपीय बाजार पिछले सत्र के दौरान मजबूती के साथ कारोबार करने के लिए बंद हुए। वहीं, एशियाई बाजारों में मिला-जुला कारोबार हो रहा है। अमेरिकी बाजार में पिछले सत्र के दौरान मुनाफावसूली का दबाव बना रहा, जिसके कारण वॉल स्ट्रीट के सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए। एसएंडपी 500 इंडेक्स 0.13 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 5,738.17 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह नैस्डेक ने 0.39 प्रतिशत लुक कर 18,119.59 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के

सेबी की गवर्निंग बॉडी की बैठक, इंडेक्स डेरिवेटिव फ्रेमवर्क समेत कई बदलाव पर हो सकती है चर्चा



नई दिल्ली।

सिक्वोरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) की गवर्निंग बॉडी के सदस्यों की सोमवार को होने वाली बैठक पर बाजार की नजरों टिकी रहने वाली है। माना जा रहा है कि बैठक में मार्केट के सभी स्ट्रेकहोल्डर्स और मेडिएटर्स से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं।

जानकारों का कहना है कि जो निर्णय लिए जा सकते हैं, उनमें इंडेक्स डेरिवेटिव्स ढांचे को मजबूत करने से जुड़ा निर्णय भी हो सकता है। इसी तरह पयुर्स एंड ऑफ़िस (एफएंडओ) के एक्सपायरी के नियम और इनसाइडर ट्रेडिंग के नियम में बदलाव करने पर भी बात हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच पर लगे आरोपों को लेकर चर्चा होने की है। कहा जा रहा है कि बैठक में गवर्निंग बॉडी अमेरिकी शॉर्ट सेलर एंजेंसी हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा चेयरपर्सन माधवी पुरी पर लगाए गए आरोपों और कांग्रेस पार्टी की

माधवी पुरी बुच पर लगे आरोपों पर भी हो सकती है चर्चा

ओर से कई किस्मों में लगाए गए आरोपों पर भी चर्चा कर सकती है। बताया जा रहा है कि अगर माधवी पुरी पर लगाए गए आरोपों पर चर्चा हुई, तो उस वक्त चेयरपर्सन खुद बैठक से बाहर हो जाएंगी, ताकि गवर्निंग बॉडी के अन्य सदस्य खुलकर इस विषय पर चर्चा कर सकें। मार्केट के स्ट्रेक होल्डर्स से जुड़े नियमों के बारे में बताया जा रहा है कि एक बार नए नियम लागू हो जाने के बाद इनका सिक्वोरिटी मार्केट पर काफी असर पड़ सकता है। खासकर इन नियमों के कारण सट्टेबाजी जैसी ट्रेडिंग पर रोक लगा सकेगी, जो इंडेक्स डेरिवेटिव्स काट्रेडर्स के डेली एक्सपायरी के साथ शुरू हुआ था।

इसके पहले 30 जुलाई को सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर जारी करके इन नियमों की प्रस्तावित रूपरेखा पेश की थी, जिसके तहत डेरिवेटिव्स काट्रेडर्स की केवल वॉकली एक्सपायरी होने की बात कही गई थी। इसके साथ ही न्यूनतम कॉन्ट्रैक्ट मूल्य को लॉचिंग के समय 15 से 20 लाख रुपये रखने और बाद में इसे बढ़ाकर 20 से 30 लाख रुपये करने का प्रस्ताव भी किया गया था, ताकि खुदरा निवेशकों को इसके प्रति हतोत्साहित किया जा सके। ऐसा करने के पीछे कारण बताया गया था कि खुदरा निवेशकों को इन सौदा में ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। सेबी की ही रिपोर्ट में कुछ दिन पहले एक बार नए नियम लागू हो जाने के बाद इनका सिक्वोरिटी मार्केट पर काफी असर पड़ सकता है। खासकर इन नियमों के कारण सट्टेबाजी जैसी ट्रेडिंग पर रोक लगा सकेगी, जो इंडेक्स डेरिवेटिव्स काट्रेडर्स के डेली एक्सपायरी के साथ शुरू हुआ था।

गवर्निंग बॉडी की बैठक में चर्चा की जा सकती है। जानकारों के मुताबिक बैठक में परफॉर्मस वैलिडेशन एंजेंसी की शुरुआत जैसे एक और गेम चेंजिंग सुधार पर बाजार की नजरों टिकी रहने वाली है। दरअसल, रिसर्च एनालिस्ट्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रेगुलेटड एल्लो प्रोवाइडर्स समेत तमाम मेडिएटर्स के परफॉर्मस के दावों को प्रमाणित करने वाली एक वैलिडेशन एंजेंसी की स्थापना के संबंध में सेबी पिछले साल ही एक कंसल्टेशन पेपर जारी कर चुका है। अगस्त के महीने में फिक्को के एक कार्यक्रम में सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच ने कहा था कि ऐसी वैलिडेशन एंजेंसी जल्दी ही स्थापित की जाएगी। हालांकि ऐसी कोई एंजेंसी की स्थापना करते हैं। यही कारण है कि मार्केट रेगुलेटर खुदरा निवेशकों को ऐसे सौदों से दूर रखने की बात पर विचार कर रहा है। सेबी के कंसल्टेशन पेपर के मुताबिक स्ट्राइक टैक को भी तर्कसंगत बनाने पर

डॉ. अग्रवालस हेल्थ केयर ने आईपीओ लाने सेबी के पास दाखिल किए दस्तावेज

नई दिल्ली।

टेमासेक होल्डिंग्स तथा टीपीजी समर्थित नेत्र देखभाल सेवा प्रदाता डॉ. अग्रवालस हेल्थ केयर ने अपने आरंभिक सार्वजनिक निगम (आईपीओ) के जरिये करीब 3,000-3,500 करोड़ रुपये जुटाने के लिए पूंजी बाजार

नियामक के पास प्रारंभिक दस्तावेज दाखिल किए हैं। आईपीओ 300 करोड़ रुपये तक के नए शेयर और प्रतर्वर्तकों तथा अन्य शेयर विक्रेताओं द्वारा 6.95 करोड़ शेयर की बिक्री पेशकश (ओएफएस) का संयोजन है। मार्च बैंकिंग सूत्रों ने आईपीओ का आकार 3,000-3,500 करोड़ रुपये बताया है। अनुमान पर निर्माण से प्राप्त 195 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग कर्ज भुगतान करने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा एक हिस्से का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों और अज्ञात अकार्यक अधिग्रहण के लिए किया जाएगा।

डॉ. अग्रवालस हेल्थ केयर मोतियाबिंद और अन्य सर्जरी, परामर्श, निदान, गैर-सर्जिकल उपचार तथा ऑप्टिकल उत्पादों, कॉन्टैक्ट लेंस, सहायक उपकरण और नेत्र देखभाल से संबंधित दवाइयों की बिक्री सहित सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है।

नई दिल्ली।

ग्लोबल मार्केट से सोमवार को मिले-जुले संकेत मिल रहे हैं। पिछले सत्र के दौरान अमेरिकी बाजार गिरावट के साथ बंद हुए थे। डाउ जॉन्स विन्डोस भी कमजोरी के साथ कारोबार करता नजर आ रहा है। इसके विपरीत यूरोपीय बाजार पिछले सत्र के दौरान मजबूती के साथ कारोबार करने के लिए बंद हुए। वहीं, एशियाई बाजारों में मिला-जुला कारोबार हो रहा है। अमेरिकी बाजार में पिछले सत्र के दौरान मुनाफावसूली का दबाव बना रहा, जिसके कारण वॉल स्ट्रीट के सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए। एसएंडपी 500 इंडेक्स 0.13 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 5,738.17 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह नैस्डेक ने 0.39 प्रतिशत लुक कर 18,119.59 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के

नई दिल्ली। ग्लोबल मार्केट से सोमवार को मिले-जुले संकेत मिल रहे हैं। पिछले सत्र के दौरान अमेरिकी बाजार गिरावट के साथ बंद हुए थे। डाउ जॉन्स विन्डोस भी कमजोरी के साथ कारोबार करता नजर आ रहा है। इसके विपरीत यूरोपीय बाजार पिछले सत्र के दौरान मजबूती के साथ कारोबार करने के लिए बंद हुए। वहीं, एशियाई बाजारों में मिला-जुला कारोबार हो रहा है। अमेरिकी बाजार में पिछले सत्र के दौरान मुनाफावसूली का दबाव बना रहा, जिसके कारण वॉल स्ट्रीट के सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए। एसएंडपी 500 इंडेक्स 0.13 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 5,738.17 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह नैस्डेक ने 0.39 प्रतिशत लुक कर 18,119.59 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के



का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों और अज्ञात अकार्यक अधिग्रहण के लिए किया जाएगा। डॉ. अग्रवालस हेल्थ केयर मोतियाबिंद और अन्य सर्जरी, परामर्श, निदान, गैर-सर्जिकल उपचार तथा ऑप्टिकल उत्पादों, कॉन्टैक्ट लेंस, सहायक उपकरण और नेत्र देखभाल से संबंधित दवाइयों की बिक्री सहित सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है।

मनबा फाइनेंस का शेयर निर्गम मूल्य से 25 फीसदी उछलकर हुआ सूचीबद्ध

नई दिल्ली।

नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी मनबा फाइनेंस लिमिटेड का शेयर अपने निर्गम मूल्य 120 रुपये से 25 फीसदी उछलकर सोमवार को शेयर बाजार में सूचीबद्ध हुआ। कंपनी ने करीब 151 करोड़ रुपये के आईपीओ कि लिए मूल्य का दायरा (प्राइस बैंड) 114-120 रुपये प्रति शेयर तय किया था।

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर कंपनी का शेयर निर्गम मूल्य से 25 फीसदी उछलकर 151 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ है, जो बाद में 31.20 फीसदी चढ़कर 157.45 रुपये पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर कंपनी का शेयर 20.3 फीसदी की उछाल उछल के साथ 145 रुपये पर



सूचीबद्ध हुआ, जो कारोबार के दौरान गुना अर्धदान मिला था। कंपनी आईपीओ पूर्णतः 1,25,70,000 करोड़ ताजा शेयर का निर्गम था। मनबा फाइनेंस लिमिटेड के आईपीओ की बोली के अंतिम दिन

पिछले हफ्ते के बुधवार तक 223.12 गुना अर्धदान मिला था। कंपनी आईपीओ पूर्णतः 1,25,70,000 करोड़ ताजा शेयर का निर्गम था। मनबा फाइनेंस लिमिटेड के आईपीओ की बोली के अंतिम दिन

इस्तेमाल पूंजी की जरूरतों को पूरा करने, ऋण देने तथा सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए पूंजी आधार बढ़ाने के लिए करेगी। कंपनी का बाजार मूल्यकान मार्केट कैप 791.02 करोड़ रुपये रहा।

उल्लेखनीय है कि मनबा फाइनेंस लिमिटेड ने कारोबार की शुरुआत वर्ष 1998 में मुंबई से एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में की। कंपनी के ब्रांच अर्बन, सेमी-अर्बन और मेट्रोपोलिटन शहरों और टाउनस तक हैं, जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्विस प्रोवाइड करती हैं। इस कंपनी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है लेकिन कंपनी का एक्सपेंशन वेस्टर्न, सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया के 6 राज्यों में 29 ब्रांच से जुड़े 66 जगहों तक है।

ग्लोबल मार्केट से मिले-जुले संकेत, एशिया में भी मिला-जुला कारोबार

शंघाई कपोजिट इंडेक्स 6 प्रतिशत तक उछला, निक्केई में 1,800 अंक से अधिक की गिरावट

नई दिल्ली।

ग्लोबल मार्केट से सोमवार को मिले-जुले संकेत मिल रहे हैं। पिछले सत्र के दौरान अमेरिकी बाजार गिरावट के साथ बंद हुए थे। डाउ जॉन्स विन्डोस भी कमजोरी के साथ कारोबार करता नजर आ रहा है। इसके विपरीत यूरोपीय बाजार पिछले सत्र के दौरान मजबूती के साथ कारोबार करने के लिए बंद हुए। वहीं, एशियाई बाजारों में मिला-जुला कारोबार हो रहा है। अमेरिकी बाजार में पिछले सत्र के दौरान मुनाफावसूली का दबाव बना रहा, जिसके कारण वॉल स्ट्रीट के सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए। एसएंडपी 500 इंडेक्स 0.13 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 5,738.17 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह नैस्डेक ने 0.39 प्रतिशत लुक कर 18,119.59 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के

नई दिल्ली। ग्लोबल मार्केट से सोमवार को मिले-जुले संकेत मिल रहे हैं। पिछले सत्र के दौरान अमेरिकी बाजार गिरावट के साथ बंद हुए थे। डाउ जॉन्स विन्डोस भी कमजोरी के साथ कारोबार करता नजर आ रहा है। इसके विपरीत यूरोपीय बाजार पिछले सत्र के दौरान मजबूती के साथ कारोबार करने के लिए बंद हुए। वहीं, एशियाई बाजारों में मिला-जुला कारोबार हो रहा है। अमेरिकी बाजार में पिछले सत्र के दौरान मुनाफावसूली का दबाव बना रहा, जिसके कारण वॉल स्ट्रीट के सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए। एसएंडपी 500 इंडेक्स 0.13 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 5,738.17 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह नैस्डेक ने 0.39 प्रतिशत लुक कर 18,119.59 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के



कारोबार का अंत किया। वहीं, डाउ जॉन्स पयुर्स 0.07 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 42,283.99

पिछले सत्र के दौरान लगातार खरीदारी होती रही। एफटीएसई इंडेक्स 0.43 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह सीएसी इंडेक्स ने 0.64 प्रतिशत की तेजी के साथ 7,791.79 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके अलावा डीएक्स इंडेक्स 235.27 अंक यानी 1.21 प्रतिशत की जोरदार छलांग लगा कर 19,473.63 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

एशियाई बाजारों में भी मिला-जुला कारोबार हो रहा है। एशिया के 9 बाजारों में से 3 के सूचकांक बढ़त के साथ हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, जबकि 6 सूचकांक गिरावट के साथ लाल निशान में बने हुए हैं। चीन में राहत पैकेज का ऐलान होने के कारण शंघाई कपोजिट इंडेक्स जोरदार मजबूती के साथ कारोबार करता नजर आ रहा है। ये सूचकांक 6 प्रतिशत तक उछल चुका है। फिलहाल ये सूचकांक 176.06 अंक यानी 5.39 प्रतिशत की छलांग लगा कर 3,263.59 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। अमेरिकी बाजार के विपरीत यूरोपीय बाजार में

पिछले हफ्ते के बुधवार तक 223.12 गुना अर्धदान मिला था। कंपनी आईपीओ पूर्णतः 1,25,70,000 करोड़ ताजा शेयर का निर्गम था। मनबा फाइनेंस लिमिटेड के आईपीओ की बोली के अंतिम दिन

पिछले हफ्ते के बुधवार तक 223.12 गुना अर्धदान मिला था। कंपनी आईपीओ पूर्णतः 1,25,70,000 करोड़ ताजा शेयर का निर्गम था। मनबा फाइनेंस लिमिटेड के आईपीओ की बोली के अंतिम दिन

इसी तरह हांगकांग के स्टॉक मार्केट के सूचकांक हेंग सेंग ने भी शानदार तेजी दिखाई है। फिलहाल ये सूचकांक 689.67 अंक यानी 3.23 प्रतिशत की बढ़त के साथ 21,321.97 अंक के स्तर पर पहुंचा हुआ है। इसके अलावा स्ट्रैट्स टाइम्स इंडेक्स 0.14 प्रतिशत की मजबूती के साथ 3,578.45 अंक के स्तर पर कारोबार करता नजर आ रहा है।

दूसरी ओर, गिफ्ट निफटी 0.37 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 26,194.50 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह कोस्मी इंडेक्स 0.79 प्रतिशत की गिरावट के साथ 2,628.92 अंक के स्तर पर बंद हुआ है। निक्केई इंडेक्स में बहुत बड़ी गिरावट नजर आ रही है। फिलहाल ये सूचकांक 1,848.62 अंक यानी 4.87 प्रतिशत टूट कर 37,980.94 अंक तक लुक चुका है। इसी तरह ताइवान चेंगडू इंडेक्स 306.54 अंक यानी 1.36 प्रतिशत फिसल कर 22,516.25 अंक के स्तर तक गिर गया है। इसके अलावा जकार्ता कपोजिट इंडेक्स 1.22 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 7,604.16 अंक के स्तर पर और सेट कपोजिट इंडेक्स 0.03 प्रतिशत की सांकेतिक गिरावट के साथ 1,449.76 अंक के स्तर पर कारोबार करते नजर आ रहे हैं।

आपकी खुशी की असली दुश्मन हैं ये आदतें दिनभर महसूस कराती हैं उदासी और थकावट



क्या आप अक्सर दुखी रहते हैं? शायद आप सोचते होंगे कि आपके जीवन में दुखों के लिए दूसरे लोग या परिस्थितियाँ जिम्मेदार हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार हम खुद ही अपनी परेशानियों के कारण होते हैं? हमारी कुछ बुरी आदतें हमें दुखी और निराश बनाती हैं। अच्छी खबर यह है कि इन आदतों को बदलकर हम अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। जब हम अपनी नेगेटिव सोच और विचार को बदलते हैं तो न केवल हम खुद खुश रहते हैं बल्कि हमारे आस-पास के लोगों को भी पॉजिटिविटी मिलती है। इससे हमारा कामकाज भी बेहतर होता है और हम जिंदगी में सफलता के नजदीक भी पहुंच पाते हैं। ऐसे में, आज हम आपको ऐसी 5 खराब आदतों के बारे में बताएंगे जो आपकी खुशी में रोड़ा डालने का काम करती हैं। समय रहते इन आदतों को बदलकर आप अपनी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं।

आइए जानें।

फिजिकल एक्टिविटी की कमी : कभी सोचा है कि घर में बंद रहना आपकी खुशियों को छीन सकता है? जी हाँ, फिजिकल एक्टिविटी की कमी मेंटल हेल्थ के लिए काफी नुकसानदायक हो सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रेगुलर एक्सरसाइज न सिर्फ आपकी बॉडी को हेल्दी रखती है, बल्कि डिप्रेशन, चिंता और तनाव को कम करने में भी मददगार होती है। जब आप फिजिकली एक्टिव होते हैं तो शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन रिलीज होता है जो आपको खुश और स्ट्रेस फ्री महसूस कराता है। इसलिए, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो रेगुलर एक्सरसाइज या फिर कुछ न कुछ फिजिकल एक्टिविटी काफी जरूरी है।

सही डाइट न लेना : ओमेगा 3 फैटी एसिड को ब्रेन फूड भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारे ब्रेन के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। ये फैटी एसिड मस्तिष्क की

कोशिकाओं को हेल्दी रखते हैं और इसके कामकाज को भी बेहतर बनाते हैं। अगर आप अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं ले रहे हैं तो आपको डिप्रेशन, चिंता और फोकस में कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए अपनी डाइट में मछली, अखरोट और चिया सीड्स जैसे ओमेगा 3 से भरपूर फूड आइटम्स को शामिल करना बहुत जरूरी है।

पर्याप्त धूप न लेना : सूरज की रोशनी न सिर्फ हमें एनर्जी देती है बल्कि यह हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। पर्याप्त मात्रा में धूप लेने से शरीर में विटामिन डी का प्रोडक्शन बढ़ता है जो हमारे मूड को बेहतर बनाने और तनाव को कम करने में मदद करता है। अगर आप घर के अंदर ही रहते हैं तो आपको विटामिन डी की कमी हो सकती है जिसके कारण आपको डिप्रेशन और चिंता जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए, रोजाना कुछ समय धूप में बैठने की कोशिश करें।

नींद पूरी न करना : क्या आप जानते हैं कि पर्याप्त नींद न लेने से डिप्रेशन, चिंता और तनाव जैसी समस्याएं हो सकती हैं। रात में कम से कम 7-9 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। सोने से पहले मोबाइल, लैपटॉप जैसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों का इस्तेमाल करने से बचें और कैफोन से भी दूर रहें। अगर आपकी आदतों में भी ये सब शामिल है तो इसे तुरंत बदल लें।

नेगेटिविटी से घिरे रहना :

आप किस तरह के लोगों से घिरे रहते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं और क्या सुनते हैं, इन सबका आपकी पर्सनेलिटी और सोच-विचार पर बहुत गहरा असर पड़ता है। नेगेटिव लोगों और विचारों से दूर रहें और पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, अच्छी किताबें पढ़ें और अच्छे म्यूजिक सुनें। यकीन मानिए इन आदतों को बदलने से आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों में काफी सुधार आ जाएगा।

शादी की सालगिरह पर नाराज हो गई थीं ऐश्वर्या राय


डिनर डेट में बिगड़ा खेल

बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की जोड़ी को बी टाउन की सबसे खूबसूरत जोड़ियों में गिना जाता है। हालांकि पिछले काफी समय से इस कपल के बीच काफी अनबन की खबरें आ रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों का रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा और ये अलग होने वाले हैं। आज आपको इनकी शादी से जुड़ी ऐसी ही एक किस्सा सुनाएंगे जिसमें अभिषेक ने बड़े मन से अपनी लेडी लव के लिए डिनर प्लान किया लेकिन वो बेकार हो गया। साल 2007 में अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी हुई थी। साल 2011 में उनकी बेटी आराध्या का जन्म हुआ। वोग को दिए एक इंटरव्यू में अभिषेक बच्चन से ये सवाल किया गया था कि उन्होंने अपनी वाइफ के लिए सबसे रोमांटिक चीज क्या की थी। इस पर एक्टर ने एक बहुत ही फनी मोमेंट शेयर किया था। एक्टर ने बताया कि उनका रोमांटिक डेट बुरी तरह से खराब हो गया था। वोग से बात करते हुए अभिषेक ने कहा कि ये दुनिया के सभी पुरुषों के लिए है जो सोचते हैं कि बीच डिनर दुनिया के सबसे रोमांटिक डिनर में से एक होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने अपनी शादी की दूसरी सालगिरह पर मालदीव में ट्राई किया था, लेकिन यह प्लान पूरी तरह से बर्बाद हो गया। सबसे पहले हवा और मोमबतियां बार बार बुझ रही थीं और सारी रेत खाने में आ रही थी। हमारी पूरी डेट यू ही बर्बाद हो गई। इसलिए मेरी सलाह है कि कृपया ये चीजें न अपनाएं।



पांच सौ के नकली नोट पर अनुपम खेर की फोटो

आज के तकनीक के युग में कुछ भी संभव है। हालात बदतर होते जा रहे हैं, खासकर एआई के आगमन के बाद से। हाल ही में मशहूर हस्तियों के डीपफेक वीडियो भी वायरल हुए। अब बॉलीवुड कलाकार अनुपम खेर की फोटो वाले पांच सौ के नोटों वीडियो वायरल हुआ है। इसका एक वीडियो खुद अनुपम खेर ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर कर हैरानी जताई है। अभिनेता अनुपम खेर ने पांच सौ के नोट पर महात्मा गांधी के स्थान अपनी फोटो छपे नोटों का वीडियो सोशलमीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि अभी बोलें, 500 रुपए के नोट पर गांधीजी की फोटो की जगह मेरी फोटो? सच में कुछ भी हो सकता है।



इस चॉकने वाले वीडियो ने हर किसी का ध्यान खींचा है। वीडियो में दिख रहे नोटों का आकार, रंग और डिजाइन बिल्कुल असली नोटों जैसा है। उन नोटों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। इन नकली नोटों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उल्लेखनीय है कि अहमदाबाद में अनुपम खेर की फोटो वाले नकली नोट सर्राफा व्यापारी मेहुल ठक्कर के पास से मिले हैं। सर्राफा व्यापारी का कहना है कि व्यक्ति उन्हें एक करोड़ 60 लाख रुपए नोटों का बैग दे गया। जब बैग खोला गया, तो उसमें महात्मा गांधी की जगह से अनुपम खेर की फोटो वाले नकली नोट मिले। कारोबारी की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।



Government of Assam
Department of Food, Public Distribution & Consumer Affairs

**An innovative measure
towards ensuring Food Security**

ANNA SEWA DIN

1-10 October 2024

During these Special Days

Under National Food Security Act

For beneficiaries under 'Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana'

35 kg rice
Antyodaya Anna Yojana (AAY)
Per month, per family

5 kg rice
Priority Household (PHH)
Per month, per beneficiary

will be provided

Households covered
66,83,420

Beneficiaries covered
2,31,70,547

If any beneficiary does not receive due quantity of free rice

Contact 1800-345-3611 | 1967 (toll free) between **9 AM to 6 PM**

'To do' for Beneficiaries

- Collect free rice from Fair Price Shops during these days
- Collect receipts generated by e-Pos machines against the rice received

'To do' for Fair Price Shops

- Mandatorily inform beneficiaries about Anna Sewa Din through wide publicity
- Keep the shop open throughout the day during Anna Sewa Din
- Ensure full distribution of rice entitled to beneficiaries during Anna Sewa Din
- Produce receipts of e-Pos machines against rice received by the beneficiaries

-- Janasanyog /D/6676/24/1-Oct-24